



कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, पांच लोगों ने पत्थर से कुचलकर मार डाला

बेंगलुरु। कर्नाटक में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पांच लोगों ने पत्थर से कुचलकर कांग्रेस कार्यकर्ता को मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक स्थानीय कांग्रेस नेता का समर्थक था।

क्या है मामला
घटना बेंगलुरु के चौडेश्वरी नगर इलाके की है। मृतक की पहचान रवि उर्फ अश्विनी (42 वर्षीय) के रूप में हुई है। बेंगलुरु के नंदीनी लेआउट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच टीम का गठन कर लिया है। खबर के अनुसार पांच लोगों ने मिलकर रवि की हत्या की। पांचों आरोपी मोटोसाइकिल पर सवार होकर आए थे और रवि के सिर पर पत्थर मार-मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति का हाल ही में जन्मदिन था। मृतक रवि, कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति का समर्थक था और उसने अपने नेता को शुभकामनाएं देने के लिए हार्डिस भी लगवाए थे। पुलिस ने बताया कि हत्यारों ने पहले उन हार्डिस को फाड़ा और उसके बाद रवि की हत्या कर दी। वहीं एक अन्य घटना में बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली इलाके में एक 28 वर्षीय युवक की एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद ताहिर हुसैन के रूप में हुई है। खबर के अनुसार, पुलिस की एक टीम हत्या की कोशिश के एक मामले में ताहिर को पकड़ने गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे इमारत से धक्का दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस को देखकर ताहिर ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान वह गिर गया।

तीन देशों की यात्रा कर दिल्ली लौटे पीएम मोदी: बोले- ऑस्ट्रेलिया के भारतीय इवेंट में वहां का पक्ष-विपक्ष साथ बैठा, ये लोकतंत्र की आत्मा है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। वहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। वे बोले कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ, उसमें वहां के PM, पूर्व PM, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। ये वहां का लोकतंत्र है। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधि को सम्मान दिया।

दरअसल, बुधवार को कांग्रेस समेत 19 दलों ने देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इन पार्टियों ने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा ही निकाल ली गई है, तो नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। PM के भाषण को इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। नई संसद के इन्फ्रान्शान का बायकांट

कर रहे विपक्ष ने कहा- लोकतंत्र की आत्मा सोख ली गई

पीएम मोदी 19 मई से तीन देशों के दौरे पर थे

पीएम मोदी 19 मई से तीन देशों-जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर थे। जापान में वे जी20 और क्राइ बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद वे पापुआ न्यू गिनी गए जहां पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति ने पेर झंझर उनका स्वागत किया। 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जहां उन्होंने ब्रह्मपंथी अलबनीज से मुलाकात की और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए।

मै दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों को मिलकर हिन्दुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। देश के युवा पीढ़ी की चर्चा करता हूं। अवसर मिलने पर भारत के युवा कैसा पराक्रम कर दिखाते हैं, ये दुनिया को बताता हूं। ये बताते समय मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिलाकर बात करता हूं। यह सामर्थ्य इसलिए है कि आपने



देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। ऐसी सरकार का प्रतिनिधि जब कुछ कहता है तो दुनिया विश्वास करती है कि यह अकेला नहीं बोल रहा 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जो को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं, ये मां भारतीय को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि

हो, तो हिन्दुस्तानी इतनी खुशी से भर जाता है कि रात को 3 बजे यहां पहुंच जाता है। इस यात्रा का समय ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना समय मुझे मिला उसका पल-पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में पूरी तरह से उपयोग किया। एक बार मैं लंदन दौरे पर गया था। जब मैं क्रीन एलिजाबेथ से मिला था तो वे मुझे अपने घर ले गईं। खाना खाते समय वे अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आईं और एक एक मां की तरह उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपके लिए स्पेशल वेज खाना बनवाया है। उन्होंने मुझे महात्मा गांधी का दिया रूमाल दिखाया। हाथ से बना वो रूमाल देखकर मुझे अहसास हुआ कि भारत की बनी हर चीज की कितनी अहमियत है। अपने दौरे के आखिरी दिन बुधवार को उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अलबनीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा- अलगाववादी तत्वों की

गतिविधियों पर हमने पहले भी बात की थी। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं, जिससे आपसी रिश्तों को नुकसान हो। ब्रह्म अलबनीज ने भरोसा दिलाया कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोदी बोले- ये मेरी अलबनीज से एक साल में छठवीं मुलाकात है। इससे साबित होता है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के संबंध कितने गहरे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो दोनों देशों के रिश्ते 3-20 मोड में आ गए हैं। मोदी ने अलबनीज को इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्योता दिया।

सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का दौरा किया
बुधवार को ही मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की विजनेस कम्युनिटी से बातचीत की। मोदी और अलबनीज सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस भी गए। सिडनी हार्बर के एक छोर पर भारत तो दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल फ्लैग नजर आए। इसके बाद मोदी डेलिंगेशन के साथ स्टेट डिनर के लिए निकले।

दिल्ली-नोएडा सफर होगा आसान, इस लाइन पर 8 नये मेट्रो स्टेशन

नई दिल्ली। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक आने वाली मेट्रो लाइन पर प्रस्तावित आठ मेट्रो स्टेशन की लोकेशन तय कर दी गई है। सेक्टर-96 में बन रहे नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय के सामने मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। यह एका लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। इससे नोएडा-दिल्ली से ग्रेने आने-जाने वालों को सहूलियत होगी। अभी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एका लाइन को संचालित कर रहा है। दिल्ली से ब्लू या मजेंटा लाइन से आने वालों को ब्लू लाइन के सेक्टर-52 स्टेशन पर उतरना पड़ता है। यहां से पैदल या ई-रिक्शा से लोग एका लाइन के सेक्टर-51 स्टेशन पहुंचते हैं। इस लाइन पर करीब 1800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इसमें 20 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी।

इन जगहों पर बनेंगे मेट्रो स्टेशन

सेक्टर- 44 : एफ ब्लॉक पार्क के सामने

सेक्टर- 96 : नोएडा प्राधिकरण के बन रहे प्रशासनिक कार्यालय के सामने

सेक्टर - 105 : हाजीपुर अंडरपास के पास ग्रेटर

नोएडा की ओर करीब 100 मीटर की दूरी पर सेक्टर - 38 ए : यह स्टेशन अभी बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सटकर बनाया जाएगा

सेक्टर - 97 : यूनिटेक बिल्डिंग से ग्रेटर नोएडा की ओर करीब 150 मीटर की दूरी पर

सेक्टर - 108 : जेपी फ्लॉइडओवर (सेक्टर-82) फ्लॉइडओवर से पहले उतरने वाले स्लिप रोड के पास

सेक्टर - 93 : पार्श्वनाथ प्रेस्टीज और एल्डिको सोसायटी के बीच में

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मेट्रो लाइन पर करीब 1800 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। योजना के मुताबिक, बॉटनिकल गार्डन और सेक्टर - 44 के मेट्रो स्टेशन को छोड़ दें बाकी सभी छह स्टेशन एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर रोड पर बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड को जोड़ते हुए एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के पास, जो छह स्टेशन बनाए जाएंगे,

नई दिल्ली। मनी लॉन्डिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल के बाथरूम में सुबह गिरकर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बाथरूम में फिसलने से वह गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तीन दिनों का इलाज अस्पताल में कराया गया है। यहां उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ के जेल नंबर 7 में बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुबह 6 बजे वह मेडिकल इस्पेक्शन रूम के बाथरूम गए थे। तभी वह गिर पड़े। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। एक हफ्ते में दूसरी बार सत्येंद्र जैन को अस्पताल जाना पड़ा है। अस्पताल में एहतियात के तौर पर उनके सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की स्पाइड की सर्जरी भी होनी है। स्पाइड में प्रॉब्लम की वजह से वो कमर में बेल्ट पहनते हैं। डीजी जेल संजय

बेनिवाल ने कहा कि जैन सेंट्रल के मेडिकल इस्पेक्शन रूम के बाथरूम में गए थे। कमजोरी की वजह से यहां निगरानी में रखे गए जैन बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जहां उन्होंने उसकी वाइटल नॉर्मल पाई गई। बाद में उन्हें तीन दिनों का इलाज अस्पताल में कराया गया।



जम्मू कश्मीर में पेड़ गिरने से चार लोगों की मौत

जम्मू। जम्मू कश्मीर के किरतवाड़ जिले में पेड़ गिरने से गुरुवार तड़के एक घुमंतु परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी, जिसमें एक दंपति भी शामिल है। किरतवाड़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने कहा, 4-आज तड़के करीब तीन बजे पेड़ (केल का पेड़) गिरने से खानाबदोश (घुमंतु) परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।- उन्होंने कहा कि पेड़ भारी बारिश और आंधी के कारण गिर गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान नजीर अहमद



(55), उनकी पत्नी अंजारा (42), बहू शमा बानो (18) और शकीला (36) के रूप में की गई है। सभी कठुआ जिले के बरवाल घट्टी निवासी थे। एसएसपी ने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गयी है। कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

आप को मिला 6 दलों का साथ, पर कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया हाथ; क्यों अरविंद केजरीवाल से बच रही पार्टी?

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों देशव्यापी दौरे पर हैं। इस दौरान वह सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और पिछले सप्ताह जारी किए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले का अधिकार चुनी हुई सरकार का है और एलजी उसे मानने को बाध्य हैं। इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें अफसरों के तबादले का अधिकार केंद्र सरकार के पास रखा गया है।




केजरीवाल इसी अध्यादेश को संसद से पारित होने से रोकने के लिए विपक्षी दलों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वह अब तक शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जनता दल (यूनियटेड) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। कांग्रेस की विभिन्न राज्य

इकाइयों के कई नेता इस मुद्दे पर आप को राहत देने के मूड में कतई नहीं हैं। वे खुलकर इस मुद्दे पर केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। आप ने 10 वर्षों में लड़े 20 विधानसभा चुनाव आप के प्रति कांग्रेसियों की खूबसूरत क्यों है? इसका जवाब यह है कि आप ने कांग्रेस के जनाधार को खत्म कर ही बड़े पैमाने पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाई है। आप ने सबसे पहले 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पिछले 10 वर्षों में आप 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है लेकिन एकांशिक रूप से ही विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई है, जबकि दो में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये राज्य हैं- दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात।

मायूस नहीं करेगा मॉनसून, तय समय पर लाएगा बारिश का तोहफा

नई दिल्ली। मॉनसून 2023 की रफ्तार और मौसम की गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि देश को बारिश का तोहफा बैंगर देरी के तय समय पर ही मिल सकता है। मौसम के जानकार इस बात के संकेत दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मॉनसून के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जून के पहले सप्ताह में ही मॉनसून केरल में दस्तक दे देगा। एक अखबार से बातचीत में स्कायमेट के अध्यक्ष जीपी शर्मा बताते हैं कि 19 मई को ही अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी थी। हालांकि, उन्होंने बताया कि अब तक

इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के डीएस पी ने कहा, हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में क्रॉस इन्फ्लेक्शन फलों या प्रवाह मजबूत होने लगा है...। उन्होंने कहा, अगले दो तीन दिनों में बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल होती नजर आ रही है। उन्होंने संभावनाएं जताई हैं कि दक्षिण अरब सागर में मॉनसून को स्थापित होने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। **क्या कह रहे हैं जानकार** पी ने कहा कि 4 जून के



आसपास ही मॉनसून केरल पहुंच सकेगा। वहीं, शर्मा का कहना है कि केरल में मॉनसून पहुंचने को लेकर अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून की गतिविधियों में एक सप्ताह में काफी फर्क आया है। कहा जा रहा है कि क्रॉस-इन्फ्लेक्शन फलों जैसे कारणों के चलते हालात फिर मॉनसून के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने कहा, केरल में मॉनसून आने में देरी की संभावनाएं कम हैं और अनुमानित तारीख 7 जून है। IMD के शर्मा ने कहा, फिलहाल, पश्चिम प्रशांत में मौजूद ताइफून 30 मई तक जापान सागर से दूर जाने के आसार हैं। इससे केरल

में मॉनसून के आने की स्थितियां तैयार होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये ताइफून काफी दूर हैं और बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाओं की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो मॉनसून के बहाव पर असर डालेंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि हिंद महासागर मॉनसून की हवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते केरल में मॉनसून आने में देर हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान के अनुसार, जून की शुरुआत में हवाएं फिर से तैयार होंगी और मॉनसून 5 से 7 जून के बीच केरल पहुंच सकता है।

सीएम सरमा का कांग्रेस पर आरोप, संगोल के अपमान में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरु की अहम भूमिका

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने नई संसद में स्पीकर की सीट के पास स्थापित होने वाले पांच फीट लंबे राजदंड को वॉकिंग रिटक के रूप में रिलीगेट करके हिंदू परंपराओं के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की अहम भूमिका है। औपचारिक राजदंड को तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1947 में अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में नेहरु को सौंप दिया था। इस राजदंड को बाद में इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरु गैलरी में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उसी संगोल को 28 मई को रिसीव कर नए संसद भवन में स्थापित करने वाले हैं। संगोल हमारी स्वतंत्रता का अभिन्न अंग था, लेकिन पंडित नेहरु की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद वामापीयों ने इस एक संग्रहालय के कोने में वॉकिंग रिटक के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा कि एक ओर उदाहरण है कि कैसे एक पूरे इको-सिस्टम ने इतिहास की किसी भी घटना को संसर कर दिया, जिसने प्राचीन भारत और हिंदू रीति-रिवाजों का महिमामंडन किया। भाजपा आई सेंल के प्रमुख अमित मालवीय ने पहले कहा था कि राजदंड को उसका सही स्थान दिया गया है।

मुंबई में केजरीवाल ने की एनसीपी प्रमुख पंवार से मुलाकात

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के एक दिन बाद, सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद रावत चड्ढा, दिल्ली की मंत्री अतिथी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू गए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। केजरीवाल का यह दौरा कोलकाता से शुरू हुआ है। उन्होंने सबसे पहले सीएम ममता से मुलाकात की थी। इसके बाद वह मुंबई पहुंचे थे। बुधवार को केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को गिराया जा रहा है। वहीं, उद्धव ने केजरीवाल से मुलाकात के बाद भाजपा पर निशाना साधकर कहा कि हम उन ताकतों को हराने के लिए एक साथ आए हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं।

उड़ान भरते ही पक्षी से टकराया इंडिगो का विमान...सभी यात्री सुरक्षित

मंगलूरु। मंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एमआईए) के रनवे पर दुर्घटना का एक विमान से गुरुवार सुबह पक्षी टकराया, जिसके बाद उड़ान रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े 8 बजे की है। दरअसल पक्षी विमानन कंपनी 'इंडिगो' के विमान के पर से टकराया, जो उड़ान भरने को तैयार था। पायलट ने तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को सूचित कर उड़ान रद्द करा दी। घटना के बाद 160 यात्रियों को विमान से उतरा गया। इस घटना से हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए अफरा-ताफरी मच गई। बाद में, यात्रियों को बंगलूरु से आए दूसरे विमान से दुर्घटना से बचने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञ विमान का निरीक्षण कर रहे हैं। एमएआई के अधिकारियों ने बताया कि उड़ान 6ई1467 (जिसे सुबह आठ बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरनी थी) 'टेवसीवे' से रनवे में प्रवेश करते ही एक पक्षी से टकरा गई। पायलट ने एटीसी को इसकी सूचना दी और सुबह साढ़े आठ बजे विमान 'एनएन' (विमानों को खंडे किए जाने की जगह) पर लैंड आया। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से उतरा दिया गया। इसके बाद इंडिगो ने उन 165 यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था की है, जिन्हें उड़ान संख्या 6ई5347 से (सुबह नौ बजकर 10 मिनट पर) बंगलूरु जाना था। दुर्घटना के लिए विमान पूर्वाह्न 11 बजकर पांच मिनट पर रवाना हुआ।

सीरियल किलर रविंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा

-करीब 30 बच्चों से दरिंदगी की बात कबूली

नई दिल्ली। बच्चों से दुर्कर्म व हत्या मामले में गुरुवार को सीरियल किलर रविंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रविंद्र को यह सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार की कोर्ट ने सुनाई है। पुलिस पड़ोस में आरोपित ने वर्ष 2008 से 2015 तक करीब 30 बच्चों से दरिंदगी की बात कबूली है। रविंद्र छद्मी फेल है। वह शराब व नशे का आदी है। रविंद्र ने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, जिसमें तीन लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म या दुर्कर्म करते थे। यह फिल्म देखने के बाद वह भी शराब पीकर व उसके बाद सूखा नशा (साल्यूशन व व्हाइटनर आदि) करके बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता गया। तीस में से 14 अपराधिक मामलों को वह दिल्ली के कंडावाला, समथपुर बादली, निहाल विहार, मुंडका, नरेला आदि इलाकों में अंजाम दे चुका था। पुलिस जब आरोपित को वारदात की जगहों पर लेकर गई थी, तब कुछ जगह साक्ष्य नष्ट हो चुके थे व कुछ जगह साक्ष्य मिले थे। रविंद्र 2008 में अंग्रेजी हारर मूवी 'डरवनी फ्लिक्स' देखकर हैवान बना। फिल्म देखने के बाद उसने पहली वारदात को अंजाम दिया। अपने गुनाह को कबूल करने वाला रविंद्र इतना हैवान है कि वह बच्चों को मारने के बाद उनके शवों के साथ भी गलत काम करता था। यह बात उसने खुद मीडिया के सामने स्वीकार की थी। आरोपित ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों को अपना शिकार बनाता था।

स्टालिन का केंद्रीय मंत्री शाह को पत्र, अमूल से कहे तमिलनाडू से दूध नहीं खरीदें

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यात्रि अमूल तमिलनाडु को ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड या आविन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उसने अमूल को आविन के मिल्क-शेड क्षेत्र से दूध नहीं खरीदने का निर्देश देने की अपील की है। स्टालिन ने अमूल द्वारा कृष्णागिरी जिले में विलिंग सेंटर और एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने और राज्य में कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लेर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवर्णूर और उसके आसपास दूध खरीदने की योजना का उल्लेख किया। स्टालिन ने कहा, भारत में यह एक परंपरा रही है कि सहकारी समितियों को एक-दूसरे के मिल्क-शेड क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना फलने-फूलने दिया जाए। इस तरह की क्रॉस-प्रोवयोरमेंट ऑपरेशन व्हाइट फ्लड की भावना के खिलाफ है और मौजूदा दूध की कमी को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं बढ़ाएंगी। आविन के मिल्कशेड क्षेत्र का अमूल उल्लंघन कर रहा है, जिसे दशकों से सच्ची सहकारी भावना से पोषित किया गया है। यहां तक कि राज्य में कई निजी डेयरी आविन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, स्टालिन ने कहा कि इस तरह अमूल के कदम से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और विपणन में लगी सहकारी समितियों के बीच खराब प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। स्टालिन ने कहा, क्षेत्रीय सहकारी समितियों राज्यों में डेयरी विकास की रीढ़ रही है और वे उत्पादकों को शामिल करने और उनका पोषण करने और मनमानी मूल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएमके नेता अंबुगुण रामदास ने कहा कि अमूल आंध्र प्रदेश के श्रीसिटी में एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रहा है और तमिलनाडु में प्रतिदिन लगभग 30,000 लीटर दूध खरीदने का उसका लक्ष्य है।

गैंगस्टर लॉरेस बिश्नोई दिल्ली की मंडोली जेल में शिफट

नई दिल्ली। कृष्णात गैंगस्टर लॉरेस बिश्नोई को गुरुवार तड़के साबरमती जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफट किया गया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने कहा कि बिश्नोई को मंडोली जेल में बंद करने का फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। 2 मई को 33 वर्षीय गैंगस्टर दिल्लीताजपुरिया को तिहाड़ जेल में हमलावरों ने 90 से अधिक बार चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

'ताकतवर देश बनकर उभर रहा भारत', धर्मेंद्र प्रधान बोले- नकारात्मक मानसिकता छोड़कर प्रजातंत्र के महायज्ञ में शामिल हो विपक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में नई संसद के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बवाल छिड़ चुका है। 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे इसके उद्घाटन को लेकर अपना विरोध जताया और समारोह को बहिष्कार करने की बात कही है। नई संसद का उद्घाटन 20 मई को होना है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष को इसमें शामिल होने की बात कही है। प्रधान ने कहा कि 21 वीं सदी में अमृत काल में नए संसद भवन का लोकार्पण कर्मादी के हाथों से होने वाला है। वो इस पीढ़ी के लिए सबसे स्मरणीय दिन होने वाला है। आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनकर भारत उभर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह सबके लिए गौरव का क्षण होगा... हम अपील कर रहे हैं कि वो (विपक्ष) नकारात्मक मानसिकता छोड़कर प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में शामिल हो। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को संसद की कदर नहीं है। वे लगातार संसद को बाधित कर रहे हैं। वे संसद में बोलने के सदस्यों के अधिकारों को बाधित कर रहे हैं। वे संसद का बिल्कूल भी सम्मान नहीं है। उद्घाटन का दिन देश के लिए महत्वपूर्ण है और वो (विपक्ष) इसमें राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्षी दलों ने संविधान से कुछ अनुच्छेद बोले और उस आधार पर हमें सलाह दे रहे। पुरी ने कहा कि उस समय भी इंदिरा गांधी ने (संसद के उपभवन के उद्घाटन के दौरान) किया था। आपके पास अपने लिए अलग मानक है और दूसरों के लिए अलग। यह देश और किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार आने वाला क्षण है। फुटनोट में कहीं लिखा जाएगा कि इन लोगों द्वारा संसद भवन के खुलने के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह लोकतंत्र का मॉडर्न है, यहां तक ??केंद्र प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुककर संसद में प्रवेश करते हैं। मैं विपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि



कृपया पुनर्विचार करें और समारोह में हिस्सा लें।

हम सीमा पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे, इस कारण हमारी सेना का तकनीकी रूप से आधुनिक होना जरूरी: सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसके बाद अनिवार्य होता है, कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक तकनीकी रूप से एडवेंस सेना हो।



आमतौर पर हम अब तक रिसोर्स की दृष्टि से नहीं देखते थे। यूरेनियम का उदाहरण ले लीजिए। जाने कितने हजारों-लाखों साल से यह धरती में पड़ा हुआ था। हो सकता है, यह मानव के हाथ कहीं बार आया हो, और मानव ने इस सामान्य वस्तु समझ कर छोड़ दिया हो। पर एक बार इसकी खोसियत जान लेने के बाद, मानव ने इसको पैसा इस्तेमाल किया, कि यूरेनियम आज दुनिया भर में बदलाव लाने वाले प्रमुख कारकों में से एक बन गया।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए तब यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, हमारा टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण में एडवेंस होना बहुत आवश्यक है। रक्षामंत्री ने कहा कि आज हमारे सामने भी कई बड़ी-बड़ी चुनौतियां दिखती हैं। बात जब देश की रक्षा की आती है, तब यह चुनौतियां और व्यापक हो जाती हैं। इन चुनौतियों से कोई संस्थान अकेले नहीं निपट सकता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं, वह है सामूहिक प्रयास और पार्टनरशिप। सिंह के मुताबिक किसी भी देश के विकास में रिसर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक हम रिसर्च नहीं करते, तब तक हम नई-नई टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पाएंगे। आज इकोनामी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी आदि सभी सेक्टर में रिसर्च और टेक्नोलॉजी का समावेश हो चुका है। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि आर एंड डी की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है, कि यह उन चीजों को रिसोर्स में बदलने की क्षमता रखता है, जिन्हें

युवाओं की भी एक बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलती है। यदि एकेडीनिया का जुड़वा डीआरडीओ के साथ होता है, तब डीआरडीओ को एक साथ कैंड फोल्ड के एक्सपर्ट मिल जाएंगे और एक मल्टीडाइमेंशनल और मल्टीडिमेंशनल अप्रोच के साथ डीआरडीओ आगे बढ़ पाएंगे। गौरतलब है कि डीआरडीओ के पास एक बेहद एडवेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर है। आज डीआरडीओ के पास लगभग 50 लैब हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इस प्रकार की पार्टनरशिप हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, कर्नाटक भाजपा सांसद ने कहा- 1 जून से बिल न दें



- विंताजनक स्तर तक सिंकुट गए विशाल झीलें एवं जलाशय

नई दिल्ली (एजेंसी)। मैसूर के सांसद और भाजपा नेता प्रताप सिन्हा ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर हर घर को मुफ्त बिजली देने के कांग्रेस के वादे का हवाला देते हुए लोगों से 1 जून से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के लिए कहा, अगर उनकी खपत 200 यूनिट से कम थी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। जब कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटें जीतकर भाजपा को बाहर कर

मोदी सरकार को मिला बहनजी का साथ, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष का बहिष्कार अनुचित

- राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ प्रयाशी उतरते समय विपक्ष को सोचना था

लखनऊ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि, 19 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन दलों को मांग है कि पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस भवन का उद्घाटन करें। इस विरोध के बीच मोदी सरकार को बसपा प्रमुख मायावती का साथ मिला है। इस लेकर मायावती ने ट्वीट भी किए हैं। मायावती ने कहा कि केन्द्र में पहले



चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखकर इसका स्वागत करती है। बसपा सुप्रियो ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं करने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। मोदी सरकार ने

नए संसद भवन को बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का हक है। इस आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। बहनजी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधकर कहा कि यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उमीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निर्माण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किन्तु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी।

नितिन गडकरी को धमकी मामले की एनआईए कर रही जांच

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले मामले की एनआईए जांच कर रही है। गौरतलब है कि करीब दो सप्ताह पहले गडकरी के नागपुर स्थित आधिकारिक आवास के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने गडकरी से बात करने और उन्हें धमकी देने की बात कही थी। यह पहली बार नहीं था जब नागपुर में गडकरी के कार्यालय को धमकी भरा फोन आया था। इससे पहले जनवरी और मार्च में मंत्री के नागपुर स्थित कार्यालय में भी इसी तरह के फोन आए थे। गडकरी के दिल्ली कार्यालय में भी इसी तरह का फोन आया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। एनआईए की एक टीम के नागपुर स्थित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय का दौरा करने की संभावना है। हालांकि, जांच एजेंसी ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 19 मई को एनआईए की एक टीम ने गडकरी के नागपुर कार्यालय का दौरा किया था।

दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा अमेरिका, अडानी के नेटवर्थ से भी कम पैसा बचा

-अमेरिका के पास 57 अरब डॉलर का कैश बचा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इन दिनों दुनियाभर में यूएस के दिवालिया के बारे में बात हो रही है। क्या अमेरिका किसी बड़े संकट में फंस गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैककार्थी ने देश की ऋण सीमा को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक बैठक की है। ये बैठक इस बात को लेकर की गई है कि अमेरिकी संघीय सरकार अपने खातों का भुगतान करने के लिए कितना उधार ले सकती

है। हालांकि दोनों की बातचीत के बाद अभी तक कोई समझौता नहीं बन पाया है। ऋण सीमा बढ़ाने की संभावित समय सीमा से ठीक 10 दिन पहले ये डेबेक्रेडिट राष्ट्रपति और रिपब्लिकन स्पीकर के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। अमेरिका में डेब्रेथ सीलिंग का संकट लगातार गहिरता जा रहा है। अगर जल्दी समाधान नहीं निकला, तब देश अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर बन सकता है। देश के पास केवल 57 अरब डॉलर का कैश रह गया है जो भारतीय करोड़पती गौतम अडानी की नेटवर्थ से भी कम है। ब्लूमबर्ग की बिलियनयर



इंक्स के अनुसार अडानी की नेटवर्थ 64.2 अरब डॉलर है। अमेरिका को रोजाना 1.3 अरब डॉलर इंटरस्ट के रूप में देना पड़ रहे हैं। दिन पहले ये डेबेक्रेडिट राष्ट्रपति और अमेरिका अगर अपने कर्ज संकट को खत्म नहीं करता है, तब आने वाले तीन हफ्तों में कैश खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि 8 या 9 जून तक ट्रेजरी डिपॉजिटेंट के पास कैश गिरकर 30 बिलियन डॉलर रह जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कैश बहुत कम है।

पहली बार देश के पास पूरी तरह अपना संसद भवन होगा : फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा संसद भवन वास्तव में एक 'काउंसिल हॉल' है, और पहली बार देश के पास पूरी तरह अपना संसद भवन होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने पत्रकार से चर्चा करते हुए यह कहा। फडणवीस ने कहा, 'किसी को भी यह भूलना नहीं चाहिए कि मौजूदा संसद भवन असल में एक काउंसिल हॉल है। पहली बार भारत के पास पूरी तरह अपना संसद भवन होने जा रहा है।' उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब राज्य प्रमुखों ने संबंधित राज्यालों को आमंत्रित करने के बजाय खुद महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों का उद्घाटन किया। फडणवीस ने पुछा, 'जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय सौध का उद्घाटन किया और राजीव गांधी ने संसद परिसर में पुस्तकालय की आधारशिला रखी, तब क्या वह लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध था।



अगर वह कहीं बाहर है, तब किसी जगह शरण ले लें। लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को किसी पेड़ के नीचे नहीं रुकने की सख्त निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में शुक्रवार तक कहीं कहीं पर गरज के बारिश होने का अनुमान है। जिससे तापमान के गिरने की भी संभावना है। इसके साथ ही पड़ोसी तमिलनाडु में चक्रवात के चलते बेंगलूरु शहर, बेंगलूरु ग्रामीण, शिमोगा, मांड्या, तुमकूर, रामनगर और कोलार जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण कन्नड़ के तटीय जिले, उडुपी, कोडगु और पहाड़ी क्षेत्रों में चिकमंगलूरु और हसन जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बागलकोट, बेलागावी, बीदर, धारवाड़, गांडा, हावेरी और कलबुर्गी जिले में बारिश होने की आशंका है। कोपला, रायचूर, विजयापुर, यादगिरि, चामराजनगर, चिक्काबल्लपुर, चित्रनूर, दावणगेरे, कोलार, मांड्या, मैसूर, रामनगर, शिमोगा, तुमकूर और विजयनगर जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है और मछली पकड़ने को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

फर्स्ट सिटिजन बैंक शेयर इंक ने 500 कर्मचारियों को निकाला

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के नए मालिक फर्स्ट सिटिजन बैंक शेयर इंक ने लगभग 500 एसवीबी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, फर्स्ट सिटिजन के सीईओ फ्रैंक होल्डिंग द्वारा सभी कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार, नौकरी में कटौती में क्लाइंट-फेसिंग पोजीशन या भारत में कंपनी की सपोर्ट टीम का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारियों के लिए होल्डिंग की ओर से एक संदेश में कहा गया है, यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए हमें अपने दायरे और पैमाने को सही आकार देने के लिए निर्णय लेना चाहिए। जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया, उन्हें मानव संसाधन कर्मचारियों के साथ बैठकों में सूचित किया गया था कि वे 9 जून तक बैंक द्वारा नियोजित रहेंगे। निदेशक स्तर के एक कर्मचारी के मुताबिक और छंटनी संभव है।

ऑस्ट्रेलिया में मारी गई भारतीय छात्रा की मां ने अदालत से मांगा न्याय

मेलबर्न। बेरहमी से मारी गई एक भारतीय नर्सिंग छात्रा की मां ने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अदालत से न्याय देने की मांग की है। छात्रा की मां ने अदालत को बताया कि वह अपनी बेटी की मीट से पीड़ित है और खुनी को कभी माफ नहीं करेगी। नर्सिंग छात्रा की 2021 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जसमीन कोर को 23 वर्षीय तारिकजोत सिंह ने 2021 में नॉर्थ प्लायमटन में उसके वृद्ध देखभाल कार्यस्थल से पीछा किया और अपहरण कर लिया और पिलडर्स रेंज में ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई और एक उथली कब्र में दफन कर दिया गया। पीड़िता की मां रशपाल कोर गठवाले के मुताबिक तारिकजोत सिंह, जिसे इस साल फरवरी में हत्या के लिए दोषी ठहराया था, जसमीन कोर के प्रति आसक्त था और उससे शादी करना चाहता था। मीडिया आई खबर के अनुसार रशपाल कोर ने एक पीड़ित प्रभाव बयान में अदालत को बताया कि उनकी बेटी जसमीन कोर ने अपने अंतिम क्षणों में जो कुछ कहा, उसके बारे में सोच कर उन्हें पीड़ा हुई। शोकाकुल मां ने अदालत को बताया, उसे बचाने वाला कोई नहीं था, उसने अपना आखिरी समय इस धरती पर मानवता के सबसे खराब समय के साथ बिताया। रशपाल कोर ने अदालत को बताया कि तारिकजोत सिंह जसमीन कोर के प्रति आसक्त था, जिसने उसे सौ बार मना कर दिया था, और उसने जो किया उसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा, आप एक मानव जीवन को इतना सरता कैसे मान सकते हैं? आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कुछ भी नहीं थी और उसे (यदि) बकवास समझकर निपटा दिया। बता दें कि जसमीन कोर एडिलेड में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी और नर्स बनने की पढ़ाई के दौरान वृद्ध देखभाल कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। उसके लापता होने की सूचना दी गई, जब उसके नियोक्ता ने उसके परिवार को शिफ्ट से उसकी अनुपस्थिति के बारे में पछुने के लिए बुलाया। पुलिस के अनुसार, जसमीन कोर को 5 मार्च, 2022 की रात 10 बजे से ठीक पहले नॉर्थ प्लायमटन के सर्दन क्रॉस होम्स में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक ले जाया गया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हत्या के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की गैर-पैरोल अवधि अनिवार्य है।

अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए एक नई वीजा नीति की घोषणा की

ढाका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन ने बांग्लादेश के लिए एक नई वीजा नीति की घोषणा की है, जिसमें उन लोगों को यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिन पर जनवरी 2024 में दक्षिण एशियाई देश में होने वाले चुनाव में व्यवधान पैदा करने की आशंका है। ब्लिंकन ने कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण आम चुनाव करने के बांग्लादेश के लक्ष्य को समर्थन देने के वास्ते आज मैं आग्रह तथा राष्ट्रियता अधिनियम की धारा 212(ए)(3)(सी)(उसी) के तहत नई वीजा नीति की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, इस नीति के तहत अमेरिका इस तरह के किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को वीजा देने में पांबंदी लगा सकता है, जिसके बारे में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने में बाधा डाल सकता है। 'ब्लिंकन ने कहा कि वर्तमान और पूर्व बांग्लादेशी अधिकारी, सरकार समर्थक और विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्य, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और सुरक्षा सेवाओं के सदस्य नई नीति के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमेरिका ने तीन मई को बांग्लादेशी सरकार को इस निर्णय से अवगत करा दिया था। इस बीच बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनावों के लिए एक गैर-दलीय कार्यवाहक सरकार को बहाल करने के उद्देश्य से एक अभियान चला रहा है। बीएनपी का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में कोई भी चुनाव स्वतंत्र नहीं हो सकता।

सऊदी अरब और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध बहाल

टोरंटो। सऊदी अरब और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध बहाल हो गए हैं। दोनों देशों के बीच एपेक समिट के दौरान सहमति बनी है। सऊदी अरब और कनाडा के बीच 5 साल पहले दरार पैदा हो गई थी। कनाडा और सऊदी अरब ने पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करने और नए राजदूतों को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त कर ली है। दोनों देशों ने कहा कि 2018 के विवाद को समाप्त किया गया है, जिसने संबंधों और व्यापार को नुकसान पहुंचाया। कनाडा और सऊदी अरब के बयानों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में बैंकों में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपेक) फोरम के शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। बयानों में कहा गया है कि यह निर्णय दोनों पक्षों की आपसी सम्मान और सामान्य हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने की इच्छा से उपजा है।

बोलिविया की संसद में महिला सांसदों के बीच में चले लात घूंसे

लापाज। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया की संसद में महिला सांसदों ने जमकर एक दूसरे के बाल खींचे। एक दूसरे को लात घूंसे से मारा। संसद के अंदर महिला सांसदों ने अपना जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। उसको देखकर सभी हैरान रह गए। विपक्षी सांसद बैनर लेकर सदन के अंदर हंगामा कर रहे थे। सत्ता पक्ष उनसे भिड़ गया। दोनों पक्षों में काफी देर तक हाथापाई और जुलूम पैजार होती रही। सरकार की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई थी। महिला सांसद उसका विरोध कर रही थी। उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की महिला सांसद भी सदन में आकर एक दूसरे को मारने पीटने लगे।

अरबपति युवक ने की समलैंगिक शादी, दो घंटे बाद ग्राउंड फ्लोर मिले मृत

-किशोर की मां ने लगाया हत्या का आरोप -विरासत में छोड़ गया अरबों कर संपत्ति

ताइपे। ताइवान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां विरासत में मिले अरबों रुपये के मालिक 18 वर्षीय युवक की शादी के दो घंटे बाद ही मृत हो गई। कथित तौर पर युवक ने उस शख्स से शादी की, जिससे उसकी दो बार ही मुलाकात हुई थी। युवक को अपने विरासत में पिता से 500 मिलियन डॉलर की संपत्ति मिली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्षीय लार्ड 4 मई को 10 मंजिला आवासीय इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि यह वही इमारत थी, जहां उसके रियल एस्टेट एजेंट सहायक हसिया भी रहते थे। विशेष रूप से 26 वर्षीय हसिया और लार्ड ने अपनी मीट से दो घंटे पहले कानूनी रूप से अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। हसिया और लार्ड के पिता रियल एस्टेट एजेंट थे। हसिया मुक्त लार्ड के पिता को अपनी संपत्ति को मैनेज करने में मदद भी की और फिर उनके बेटे लार्ड के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ताइवानी मीडिया द्वारा 19 मई को मीट को प्रकाश में लाया गया था, जब किशोर की मां, जिसका उपनाम चैन था, उन्होंने अपने वकील के साथ मध्य ताइवान के ताइचुंग शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेईमानी का आरोप लगाते हुए उन्होंने मीट की परिस्थितियां पर सवाल उठाया।



ईरान में एक अज्ञात स्थल से चौथी पीढ़ी की खोरमशहर बेलारिस्टिक मिसाइल दागी गयी। इसकी मारक क्षमता 2000 किमी है।

पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकेंगे इमरान, नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हुए पूर्व पीएम समेत पीटीआई के 80 सदस्य

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाफ (पीटीआई) के 80 अन्य सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सैन्य प्रतिष्ठानों पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के बाद विकास उनके राजनीतिक दल पर संभावित प्रतिबंध की अटकलों के बीच आया है। बुधवार को इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है।

25 मई को इमरान खान ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सबसे बड़े और एकमात्र संसदीय पार्टी बिना किसी जवाबदेही के राज्य सत्ता के पूर्ण रोष का सामना कर रही है। 10,000 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक वरिष्ठ नेतृत्व सहित जेल में हैं और कुछ हिरासत में सजा का सामना कर रहे हैं। अपने पहले के एक संबोधन में इमरान खान ने कहा था कि वह आज सत्ता में रहने वाले किसी भी व्यक्ति



के साथ बातचीत के लिए एक समिति गठित करने के लिए तैयार है। 9 मई को अर्धसैनिक रेंजों द्वारा खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

इस महीने की शुरुआत में पीटीआई समर्थकों के

व्यापक हिंसा में शामिल होने के लिए इमरान खान आलोचना का सामना कर रहे हैं। राब्वलपिंडी में सेना मुख्यालय सहित कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर भीड़ ने हमला किया। पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई है।

बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज व पापुआ न्यू गिनी के पीएम मारापे को दिया न्योता

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे को न्योता दिया है। हिंद-प्रशांत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक ने यह जानकारी दी। बाइडेन की तरफ से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को यह बुलावा ऐसे समय में भेजा गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की यात्रा के दौरान अल्बनीज और मारापे से मुलाकात की थी। डॉ. मीरा रैप-हूपर ने कहा कि बाइडेन ने अल्बनीज को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अल्बनीज ने बाइडेन का न्योता स्वीकार कर लिया और दोनों नेताओं ने आगामी मुलाकात को लेकर चर्चा की। इससे पहले दोनों नेता जी-20 की बैठक के दौरान हिरोशिमा में मिले थे। हमारी टीम पहले से ही यात्रा के लिए योजना बनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। मारापे के बारे में बात करते हुए हूपर ने कहा कि बाइडेन ने उन्हें वॉशिंगटन में होने वाले दूसरे प्रशांत शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है भारत

फॉक्स (एजेंसी)। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद भारत और रूस के संबंध बदल रहे हैं, जबकि भारत और रूस के संबंध दोनों देशों की विदेश नीति के एक अहम स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार मानता रहा है। अब ये रिश्ते बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों की डील कैसिल करने की धमकी दी है। जून तक रूस के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ब्लैकलिस्ट में आने की संभावना है। रूस ने इस लिस्ट में आने से बचने के लिए भारत से मदद की मांग की है। मदद न करने पर या इसमें असफल रहने पर उसने भारत को सभी तरह की डील रद्द करने की धमकी भी दे दी है।

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अलग-थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। एफएटीएफ की तरफ से पड़ा दबाव अब रूस की धमकी के रूप में सामने आ रहा है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फाइनेंसिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला संगठन है। जून में इसकी एक मीटिंग होगी है, जिसमें रूस पर प्रतिबंध पर फैसला हो सकता है। भारत इसका सदस्य है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता खत्म कर दी थी। अब ऐसे में वह उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकें। एफएटीएफ ने बैन लगाया तो रूस उत्तर कोरिया, ईरान व म्यांमार की श्रेणी में होगा। रूस यूक्रेन जंग के कारण रूस पर पहले से ही काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ऐसे में एफएटीएफ की तरफ से इसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो फिर रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की ही श्रेणी में आ जाएगा। अगर रूस ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर एफएटीएफ के सदस्य, बैंक, निवेश कंपनियां और पेंमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी।

भारत के साथ सबसे अहम प्राथमिकताओं पर काम करता है अमेरिका

वॉशिंगटन (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा से पहले कहा कि अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी अहम है। हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। मिलर ने कहा कि उन्हें यह उम्मीद है कि भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गास्टेटी दोनों देशों के

बीच संबंधों को गहरा करने और साझा चिंता के मामलों पर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा के बारे में किए गए सवाल पर मिलर ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि निश्चित रूप से यूक्रेन में युद्ध जन विधियों में से एक होगा जिन पर चर्चा की जाएगी।

प्रवक्ता मिलर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई पिछली बैठकों में भी चर्चा के विषयों में से एक रहा है। अमेरिका स्पष्ट रूप से चीन में देरी को चिंता का विषय मानता है और कांसुलर दल भारत में जितना संभव हो उसी

तेजी से चीना आवेदनों पर कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे पता है कि यह देश में हमारे दूतावास के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की ओर से 22 जून 2023 को आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भी शामिल होंगे।

टीपू सुल्तान की जिस तलवार को भगोड़े माल्या ने बताया था मनहूस, 143 करोड़ रुपये में लंदन में हुई नीलाम

वॉशिंगटन। मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की बेइचैवर तलवार लंदन के एक नीलामी घर बोनहम्स इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल में 1.4 करोड़ पाउंड (17.4 मिलियन डॉलर या 143 करोड़ रुपये) में बिकी है। यह एक भारतीय और इस्लामी वस्तु के लिए एक नया नीलामी विश्व रिकॉर्ड है। बोनहम्स द्वारा एक प्रेस विज्ञापि के अनुसार तलवार का अनुमान लगभग 1,500,000 - 2,000,000 पाउंड था। बोनहम्स ने आगे कहा कि शासक के साथ एक सिद्ध व्यक्तिगत संबंध के साथ तलवार सबसे महत्वपूर्ण

हथियार थी। इस्लामी और भारतीय कला और नीलामी के बोनहम्स प्रमुख ऑलिवर व्हाइट ने कहा यह शानदार तलवार टीपू सुल्तान से जुड़े उन सभी हथियारों में सबसे महान है जो आज भी निजी हाथों में हैं। सुल्तान के साथ इसका घनिष्ठ व्यक्तिगत जुड़ाव, इसकी नूटिहीन उत्पत्ति, जिस दिन इसे पकड़ा गया था, और उत्कृष्ट शिल्प कोशिशों को इसके निर्माण में चला गया, इसे अद्वितीय और अत्यधिक वांछनीय बनाता है। बता दें एक समय था जब विजय माल्या को ऐतिहासिक महत्व की चीजों का कलेक्शन करने का शौक था। एक इतिहास की शोधकर्ता ने इस बात की पुष्टि की, कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस तलवार को 2004 की एक नीलामी में 1.5 करोड़ में खरीदा था।

आईएसआई का पूर्व प्रमुख फैज हमीद है भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड

- इमरान खान को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी वलीन चिट, हो सकता है कोर्ट मार्शल

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख फैज हमीद पर बड़ा आरोप लगाया। फैसल वाइज़ ने दावा किया कि फैज हमीद भ्रष्टाचार के उस मामले के प्रमुख साजिशकर्ता और सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि फैसल वाइज़, 2018 से 2021 तक इमरान खान के कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज यह जरूरी हो गया है कि मैं देश को बताऊं कि भ्रष्टाचार मामले में फंसे इमरान खान लाभार्थी नहीं हैं बल्कि सबसे बड़े लाभार्थी फैज हमीद हैं। उन्होंने कहा, वह (हमीद) अल-कादिर ट्रस्ट मामले को पैदा करने वाले, प्रमुख साजिशकर्ता और सबसे बड़े लाभार्थी थे। हमीद पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व जासूस हैं, जिन्होंने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के 24वें महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। वह 2019 से 2021 तक आईएसआई



के शीर्ष पर रहे और दिसंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया।

सूत्र बताते हैं कि फैज हमीद को इमरान खान का करीबी माना जाता है और उनकी निगुक्ति को लेकर ही सेना और उनके बीच विवाद पैदा हुआ था। आने वाले दिनों में इमरान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खानजा आरिफ ने बुधवार को कहा कि सरकार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाफ पार्टी के खिलाफ पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर खान के समर्थकों के हमलों के बाद यह कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, अगर सरकार पूर्व में सत्तारूढ़ रहे इस दल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो इसे मंजूरी के लिए संसद को भेजा जाएगा।

फ्रांस के बास्टिल-दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी


-14 जुलाई को आयोजित होगा राष्ट्रीय दिवस

- भारतीय सेना भी दिखाएगी अपना दम

पेरिस/नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल फ्रांस के पेरिस में 14 जुलाई को बास्टिल दिवस परेड के विशेष अतिथि होंगे। यह जानकारी नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में शामिल होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले फ्रांस सरकार ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। यह फ्रांस में लोकक्रांति व्यवस्था के लिए 18वीं शताब्दी में हुए क्रांति का एक प्रमुख घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

ईसवी साल 1789 में 14 जुलाई के दिन आंदोलनकारियों ने बास्टिल सैन्य दुर्ग और कारावास

पर धावा बोलकर कई बंदियों को छुड़ा लिया था। इस घटना से फ्रांसीसी क्रांति को गति मिली। नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास ने लिखा है कि 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। यह फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है। इस अवसर पर फ्रांसीसी लोग 'स्वाधीनता, समताता और बहुधुत्व के मूल्यों का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये मूल्य उन्हें एकजुट करते हैं। ये मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी निहित हैं। इस अवसर पर पेरिस में भव्य सैन्य परेड आयोजित की जाती है। दूतावास ने कहा कि पेरिस में पीएम मोदी की उपस्थिति दोनों देशों के लिए ऐसे समय एक विशेष महत्व की है, जबकि भारत और फ्रांस द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी के 25 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं। पेरिस की इस बार की बास्टिल-दिवस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ियां भी भाग लेंगी, भारतीय लड़ाकू जेट भी मार्च करेंगे। दूतावास ने यह भी कहा है कि दोनों देशों ने अच्छे और खुरे हर दौर में एक-दूसरे का साथ दिया है।



संपादकीय

प्रार्थना की रफ्तार

मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि दिल से निकली हुई प्रार्थना अवश्य ही भावों के सम्प्रेषण के माध्यम से अतिशीघ्र पहुँचती है।

प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं। परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं विश्वास जीवन में इतना आएं की खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था।

फिर कितनी भी आए बाधा मिल जाता है रास्ता क्योंकि इंसान मरा करते है विश्वास नहीं मरता है। नामुमकिन को मुमकिन विश्वासकिया करते है। सपने सच हो जाते है हर दुआ काम आती है विश्वास की डोर को अपना विश्वास खिंच लाती है। जहाँ विचारों काटहराव होता है। भावों का कोई भी प्रवाह नहीं चलता है। न होती है कोई भाषा और न होती कोई हलचल।

मस्तिक पर कोई भार होता नहीं है। चित्त और मन पूर्ण रूप से शांत होते हैं। उस समय आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वही ही है परमात्मा तक पहुँचने वाली प्रार्थना। परमानंद में ही स्थित होना ही है परमात्मा। परमानंद ही है प्रार्थना। भारत के ऋषि-मुनियों ने प्रार्थनाकी यह तीव्र संप्रेषण विधि पहले ही अविष्कृत कर ली थी। जिसे युगों-युगों पहले ही गहन ध्यान पद्धति का नाम दिया गया। जिसमें प्रार्थना की गति गहन ध्यानपूर्वक में इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही बिना किसी मशीनी सहयोग के प्रयास से इष्ट के पास पहुँच जाती है।



प्रदीप छाजेड़
(बोरावड़)

आज का राशीफल

मेघ	व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
वृषभ	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। धन लाभ होगा।
मिथुन	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर वाद विवाद की स्थिति को टाला जा सकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।
कर्क	आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य स्थिति ठीक रहेगी। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
सिंह	प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।
कन्या	दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। खान पान में संयम रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
तुला	आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। प्रणय संबंधों में कटुता आ सकती है। विरोधियों का पराभव होगा।
वृश्चिक	आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
धनु	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।
मकर	पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन के योग हैं। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।
कुम्भ	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
मीन	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

मौत के ताबूत बने मिग 21 लड़ाकू विमान

(लेखक - रमेश सराफ धमोरा)

भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए एयरफोर्स ने फैसला लिया है। राजस्थान में सूरतगढ़ के पास 8 मई को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक मिग-21 एयरक्राफ्ट क्लेश होकर आबादी क्षेत्र के मकानों पर गिर गया था। उस हादसे में 3 महिलाओं की जान चली गई थी। वायु सेना ने मिग-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को उड़ान भरने से तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि राजस्थान में हुए हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती है।

मौत के उदते ताबूत कहलाने वाले मिग 21 लड़ाकू विमान के आये दिन दुर्घटनाग्रस्त होते रहने के कारण उन्हें पलायन कॉन्फिन और विडो मेकर कहा जाने लगा है। इस कारण इनको स्थायी रूप से सेना से बाहर करने की मांग होती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के 400 से ज्यादा मिग-21 विमान पिछले 60 सालों में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। जिसमें 200 से अधिक पायलटों और 63 नागरिकों की जान जा चुकी है। अभी वायु सेना के पास मिग-21 बाइसन की तीन स्काइन हैं। जिन्हें 2025 की शुरुआत में चरणबद्ध तरीके से वायु सेना से हटाया जाएगा। मिग-21 को 1960 के दशक में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। एक जमाने में ये दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेनो में शामिल था। इसकी तेज रफ्तार और मारक क्षमता के आगे अमेरिका जैसे देश भी डरते थे। ये इकलौता ऐसा फाइटर प्लेन है जिसे दुनियाभर के 60 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया गया है। अब तक इस लड़ाकू विमान की 11 हजार 496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। मिग-21 विमान इतिहास का पहला सुपरसोनिक जेट विमान है। सत्र के दशक में यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर प्लेन था। मिग-21 वही फाइटर प्लेन है जिससे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका मिग 21 विमान भी क्लेश कर गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। मिग-21 बाइसन फाइटर जेट का इस्तेमाल अब केवल इंटरसेप्टर के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इनका उपयोग लड़ाकू जेट के रूप में सीमित भूमिका के साथ ज्यादातर प्रशिक्षण अभ्यास के लिए किया जाता है। ये विमान एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है।

मिग 21 लड़ाकू विमान को बनाने वाली सोवियत वायु सेना ने इसे 1985 में ही अपनी वायु सेना से हटा दिया था। 1985 के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी

इसे सेवा से हटा दिया था। भारत में भी 1990 के दशक के मध्य में इनकी सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी हो गई थी। इसके बावजूद इनका उन्नयन किया जाता रहा है। अक्टूबर 2014 में तत्कालीन वायु सेना प्रमुख ने कहा था कि पुराने विमानों को सेवा से हटाने में देरी से भारत की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि वायु सेना बेड़े के कुछ विमान बहुत पुराने हो गये हैं।

नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने में देरी के कारण भारतीय वायु सेना को मिग 21 विमानों को लंबे समय तक सेवा में रखना पड़ा। देरी का मुख्य कारण वायुसेना को भारत के आसमान की रक्षा के लिए एक निश्चित संख्या में स्काइन ताकत बनाए रखने की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्वदेशी तेजस कार्यक्रम में देरी, राफेल सौदे को लेकर राजनीतिक विवाद और धीमी गति वाली खरीद प्रक्रिया के कारण ही मिग 21 को सामान्य से अधिक समय तक सेवा में रखना पड़ रहा है।

जुलाई 2022 में भारतीय वायु सेना ने शेष सभी मिग - 21 लड़ाकू स्काइन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तीन साल की कार्य योजना तैयार की थी। जिसमें से एक स्काइन सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाली है। एक समय मिग-21 विमान अपने सभी संस्करणों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े की रीढ़ बना था। वहीं वायुसेना में दुर्घटनाओं की संख्या भी मिग 21 विमानों में सबसे अधिक थी।

भारतीय वायु सेना मिग-21 लड़ाकू विमानों को मजबूती में उड़ा रही थी। भारतीय वायु सेना को पाकिस्तान व चीन से दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए लड़ाकू विमानों की 42 स्काइन की जरूरत है। मगर भारत के पास अभी 32 स्काइन ही मौजूद है। जिनमें भी तीन स्काइन मिग-21 के शामिल हैं। भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी का मुख्य कारण लंबे समय से लड़ाकू विमानों की खरीद नहीं करना है। 2016 में फ्रांस से दो स्काइन विमानों की खरीद की गई थी।

भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की 83 यूनिट खरीदने के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिए गए हैं। जिनकी आपूर्ति में अभी समय लगेगा। ऐसे में वायु सेना को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर बोलियां आमंत्रित की गयी है। इन मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की खरीद पर भारत सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपये



से अधिक की राशि खर्च करेगी। अमेरिकी, फ्रांसीसी और स्वीडिश विमान निर्माता कंपनियां इस सौदे को हासिल करने के लिए दौड़ में शामिल हैं। अगले साल से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस वायु सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस से उम्मीद है कि आने वाले चार-पांच वर्षों में भारतीय वायु सेना के पास 40 से अधिक स्काइन हो जाएगी।

हमारे देश में वायु सेना के लिए विमानों व हेलीकॉप्टरों में खरीद की प्रक्रिया धीमी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व में घोषणा की थी कि विभिन्न दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए 12 सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान और 21 मिग 29 विमानों को हली ही खरीद कर वायुसेना को दिया जाएगा ताकि वायुसेना के बेड़े में उनकी संख्या पूर्ववत् हो जाए। मगर यह सौदा भी अभी बातचीत के स्तर पर ही चल रहा है। यदि समय पर उक्त सौदा पूरा हो जाता तो भारतीय वायु सेना को 33 लड़ाकू विमान और मिल जाते।

मिग-21 लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर रोक लगाकर वायु सेना ने एक सराहनीय फैसला किया है। आए दिन मिग-21 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से जहां पायलटों की तो जान जा ही रही थी उसके साथ ही आमजन की भी हानि होने की संभावना बनी रहती थी। जिस तरह से राजस्थान के सूरतगढ़ के पास एक गांव में मकान पर मिग-21 विमान गिरा जिससे 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। वह तो गनीमत थी कि पायलट ने घनी आबादी से दूर विमान को ले जाने का प्रयास किया था। जिसकी बदौलत बड़ी दुर्घटना होने से रोक गई थी। ऐसी दुर्घटनाओं के चलते जहां तक संभव हो मिग-21 को जमीन पर ही रखा जाए तो देश व सेना के लिए अच्छा होगा।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है। इनके लेख देश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।)

चीन के दबदबे को खत्म करने की भारतीय पहल

एन.के. सोमानी

प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित 60 लाख की आबादी वाला छोटा-सा द्वीप पापुआ न्यू गिनी इन दिनों वैश्विक परिदृश्य में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा के दो बड़े कारण रहे हैं। पहला, विविधताओं से भरपूर इस छोटे से द्वीपीय देश ने पिछले दिनों फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आइलैंड का-ऑपरेशन (एफआईपीसीआई) के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर विश्व समुदाय के समक्ष अपनी नेतृत्व क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 14 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। चर्चा का दूसरा बड़ा कारण पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे द्वार एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के समय पांव छूने की तस्वीरें बनीं। संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी एक देश के प्रधानमंत्री ने स्वागत की रस्म अदायगी के दौरान किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव छुए हों। सामान्य तौर पर अतिथियों के स्वागत की औपचारिकता हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर या गले लगाकर पूरी की जाती है। मारापे ने पीएम मोदी के पांव छूकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान और शिष्टाचार प्रकट किया है, उससे चीन की पेशानी पर बल पड़ते दिख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यह क्षेत्र भयानक जंग का मैदान बना हुआ था। यहां सोने, तांबे और अन्य खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं। विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से भी खास अहमियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया के उजर में स्थित होने के कारण सामरिक रूप से पापुआ न्यू

गिनी महत्वपूर्ण द्वीप माना जाता है। कई दशकों से यह द्वीप अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसी बड़ी महाशक्तियों के लिए दिलचस्पी का कारण बना रहा है। लेकिन अब एक-डेढ़ दशक से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने पापुआ न्यू गिनी को अपनी विदेश नीति में हाथिये पर धकेल दिया। चीन की नजरें पहले से ही इस द्वीप पर थीं। उसे अपने विस्तारवादी मंसूबों को साधने और रणनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने का स्पेस मिल गया। वह यहां सैन्य और राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां निवेश कर रखा है। उसकी नजर पापुआ न्यू गिनी के संसाधनों पर भी है। पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने मारापे को अपना अच्छा दोस्त और अच्छा भाई बताते हुए कई क्षेत्रों में सहयोग का आश्वासन दिया था। शी ने उन्हें चीन आने का न्योता भी दिया। संक्षेप में कहें तो 1980 के दशक में चीन-पापुआ न्यू गिनी के बीच शुरू हुआ आर्थिक संबंधों का यह सिलसिला अब सुरक्षा और रणनीतिक मसलों तक पहुंच गया है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते में भी बंधे हुए हैं, जो दोनों के बीच करीबी संबंधों को दिखाता है। चीन का बढ़ता प्रभाव क्षेत्र न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरे इंडो पॅसिफिक रीजन के लिए घातक हो सकता है। खासकर क्राइ (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) देशों के लिए। यही वजह है कि अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ भारत ने भी अपनी विदेश नीति में प्रशांत द्वीप के देशों के साथ संबंध बढ़ाने की शुरुआत की है। वहीं भारत ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है।

फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आइलैंड का-ऑपरेशन (एफआईपीसीआई) को भी इसी से जुड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। एफआईपीसीआई का गठन 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। इसमें 14 देशों के नेता भाग लेते हैं, जिनमें कूक आइलैंड्स, फिजी, फिनलैंड, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नीरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुआतु शामिल हैं। जहां तक भारत-पापुआ न्यू गिनी संबंधों का सवाल है, तो भारत ने करीब अर्द्धाई दशक पहले अप्रैल, 1996 में यहां अपना उच्चायोग शुरू किया था। इसके दस साल बाद 2006 में पापुआ न्यू गिनी ने भी भारत में अपना उच्चायोग शुरू किया। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता थे। भारत पापुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवा, सर्जिकल उपकरण, साबुन, वॉशिंग पाउडर जैसे जरूरी सामान निर्यात करता है। दूसरी ओर, भारत कॉफी, टिंबर, समुद्री उत्पादन, सोना, कांसे जैसी जरूरी चीजें पापुआ न्यू गिनी से आयात करता है। पापुआ न्यू गिनी अवसर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफान का शिकार रहा है। संकट के समय व अन्य जरूरी मौकों पर भारत पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भी देता रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने



पापुआ न्यू गिनी को कोरोना वैकसीन की एक लाख 31 हजार खुराक दी। जाहिर है, भारत सामरिक रूप से इस छोटे देश के साथ संबंधों को रणनीतिक व आर्थिक स्तरों के जिस मुकाम तक ले जाना चाहता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा कारगर साबित होगी।

जवाबदेही तय हो अधिकारियों की

(लेखक-सन्त कुमार जैन)

राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक के कार्यालय की अलमारी में 2.31 करोड़ रुपए की नगदी तथा 1 किलो सोना जांच एजेंसियों ने जप्त किया है। ऐसे सैकड़ों मामले हर महीने हर राज्य में देखने को मिलते हैं। यह मामला इसलिए अलग है, कि भ्रष्टाचार की कमाई में इतनी बड़ी नगदी और सोना अधिकारी ने कार्यालय में ही रखा था। भारत में जिस तरह के नियम कायदे कानून सरकारें बनाती हैं। उन नियम कायदे और कानूनों को आधार बनाकर राजनेता, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किस तरह से भ्रष्ट कमाई करते हैं। इसके हजारों उदाहरण सामने हैं। जांच एजेंसियों के छापे में आये दिन उजागर होते रहते हैं। लेकिन अब तो हद हो गई कि कार्यालय की अलमारी में रिश्वत और भ्रष्टाचार का धन रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, हो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो, या अन्य राज्य हों, सभी स्थानों में



राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां छापे में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद होती है। पटवारी जैसे छोटे से पद में काम करने वाले के यहां छापे में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की एक सविदा सब इंजीनियर के पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति जप्त हुई है। उसका वेतन मात्र 30000 रुपये प्रतिमाह है। इससे समझा जा सकता है कि शासन व्यवस्था में जो राजनेता, अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। वह किस तरह से भ्रष्टाचार के जरिए पैसे कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 100 पैसे जाते हैं। वह राज्यों में जाकर 15 पैसे ही जनता के पास पहुंच पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के इस कथन को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। जबकि उनका स्पष्ट रूप से कहना था, कि सरकारी योजनाओं का जो पैसा राज्य सरकारों के माध्यम से जनता और विभिन्न योजनाओं के लिए भेजा जाता है।

उसका मात्र 15 फीसदी तक जनता तक पहुंच पाता है। राजीव गांधी ने यह सच्चाई बताई थी। विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकारें थी। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस को ही भ्रष्टाचारी पार्टी बता दिया। 30 साल बाद भी भ्रष्टाचार की वही स्थिति है। जो 90 के दशक में थी। भ्रष्टाचार की गंगा में मंत्री, विधायक, सांसद, सरकारी, अधिकारी और कर्मचारी, गोता लगाकर करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। तरह-तरह की जांच एजेंसियां बन गईं। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़े-बड़े वादे और दावे किए। लेकिन भ्रष्टाचार कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हद हो गई है, कि सरकारी तंत्र कर्ज लेकर विकास के नाम पर कर्ज राशि से भी भ्रष्टाचार कर रही है। जिसके कारण नागरिकों पर दोहरा आर्थिक भार पड़ रहा है। भारी टैक्स और शुल्क के रूप में आम नागरिक जो पैसा सरकारी कोष में जमा करते हैं। उसकी बहुत बड़ी राशि ब्याज और किस्त के रूप में सरकारों को अदा करनी

पड़ रही है। सरकार अपने खर्च पूरे नहीं कर पा रही है। केंद्र, राज्य सरकारों, नगरीय निकायों और आम आदमी पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आमदनी अटनी और खर्चा रुपया की तर्ज पर सभी वर्ग, कर्ज लेकर कथरी अंदरकरी पीने का काम कर रहे हैं। रिश्वत लेने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले जब पकड़े जाते हैं। तो वह रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बड़ा पसंद करती हैं। पकड़े जाने के बाद भी उन पर कार्यवाही करने से परहेज करती हैं। उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित करके फिर से महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर दिया जाता है। क्योंकि वह अच्छे से मास्टर होते हैं। भ्रष्टाचार करने की विशेषज्ञ होते हैं। नेताओं और बड़े अधिकारियों को ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होती है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए की नकदी और सोना जप्त हुआ। सरकार ने संयुक्त निदेशक को निलंबित कर दिया। निलंबन

के दौरान यह अधिकारी अपने बचने के लिए सारे इंतजाम करेगा, जो उसका कामया है, उसकी बंदरबांट होगी। कुछ समय के बाद पुनः अच्छे पद पर तैनाती हो जाएगी। कुछ समय के बाद दोषमुक्त होकर मलाईदार पद पर पुनः आसीन हो जाएगा। दुगनी गति से फिर कमाई शुरू कर देगा। भ्रष्टाचार के मामले में जो अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं। उनकी कई वर्षों तक जांच चलती है। यदि मुकदमा न्यायालय तक चला भी गया, तो सेवानिवृत्ति होने या मरने के बाद ही उसका फैसला आता है। कई बार तो सरकारों कोर्ट से मुकदमा ही वापस ले लेती है। बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने में जरा भी नहीं डरते हैं। उन्हें मालूम है कि यदि पकड़े भी गए, तो रिश्वत देकर छूटने का रास्ता भी बंद जानते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें जिस तरह के नियम कायदे कानून बनाती हैं। उनमें अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।

शरीर में होने वाली शुगर की बीमारी को मधुमेह कहा जाता है। इस बीमारी में खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा इंसुलिन की गड़बड़ी के कारण होता है। इंसुलिन शरीर में पाया जाने वाला ऐसा हॉर्मोन है जो खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है।



भा गम-भाग की जिदंगी में ज्यादातर लोग स बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि इस कारण तनाव और अनियंत्रित दिनचर्या है। इसके इलाज के लिए बाजार में अनेक दवाओं से लेकर इंसुलिन का इंजेक्शन तक मौजूद है लेकिन इनकी उपलब्ध और कीमतों को देखकर इन्हें वाजिब नहीं माना जा सकता। घरेलू नुस्खे और उसमें उपयोग आने वाले घरेलू चीजें सस्ती और इस मर्ज के लिए कारगर हैं। शुगर को कम करने वाली ये घरेलू चीजें और उसके नुस्खे निम्नलिखित हैं।

करेला

घर में अक्सर यह सलाह दी जाती है कि खून में शुगर के स्तर को कम करने के लिए करेले का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सलाह बेवजह नहीं है। इस सलाह के पीछे सार्थक वास्तविकता यह है

कि करेला में ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो स्वाद में तो कड़वे लगते हैं लेकिन खून के विकार भगाने में अचूक है। शुगर इन्हीं विकारों में एक है।

दालचीनी

दालचीनी को शहद के साथ सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटता है जिससे शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। इससे खून में शुगर का स्तर स्वतः


लहसुन

लहसुन को शुगर की बीमारी में अचूक इलाज के तौर पर लिया जा सकता है। शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाकर शुगर की समस्या को लहसुन कम करता है। लहसुन को खाने में ज्यादा मात्रा में उपयोग कर स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। सांस की बीमारी में यह लाभदायक है, यह तो सबको पता है।

मेथी

मेथी में पॉलीसैकेराइड, एल्केलॉयड कोलीन, सेपोनिन डायोसजोर्निन और थेमोजेनिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मेथी में पाये जाने वाले ये तत्व खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मात्रा को कम करते हैं। ●

शुगर नियंत्रण के आसान नुस्खे



लाइलाज नहीं है बहरपन

भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें सुनने की क्षमता सामान्य से काफी कम होती है हालांकि स्क्रीनिंग के जरिये होने वाली बहरपन की शुरुआती जांच तथा कोक्लर प्रत्यारोपण और थैरेपी से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक बीके राव का कहना है कि भारत में सुन न पाने वाले बच्चे अक्सर गुंघोपन का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से वह ठीक से बोल नहीं पाते।

अ त्राष्ट्रीय शोध अध्ययन यह बताते हैं कि जिन बच्चों में बहरपन का जन्म के छह से आठ महीने के अंदर पता चल जाता है उनका इलाज संभव है। उत्तर भारत में केवल सर गंगा राम अस्पताल में ही बहरपन की स्क्रीनिंग की सुविधा है। अस्पताल में वर्ष 2007 से ही ये परीक्षण किये जा रहे हैं और अब तक 4578 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बहरपन की स्क्रीनिंग के बाद मरीज का कोक्लर इम्प्लांट और थैरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। इस इलाज के बाद ज्यादातर मरीज सामान्य व्यक्ति की तरह सुन पाने में सक्षम हो जाते हैं। कोक्लर इम्प्लांट दो तरीके का होता है जिसमें पहले में मरीज को छह से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक बार कोक्लर इम्प्लांट हो जाने के बाद यह अस्सी वर्षों तक चलता है। ●



मोतियाबिंद देरी हो सकती है घातक

मोतियाबिंद आंख की एक प्रमुख बीमारी है, जो उम्र ढलने के साथ अपने लक्षण दिखाने लगती है। मोतियाबिंद को लेकर कई मत सामने आते हैं। समझदारी इसी में है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन इसके पकने के बाद ही कराएं। इसके साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमेशा जाड़े में ही करवाना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है।

डॉ

क्टरों के मुताबिक मरीज को न तो इसके पकने का इंतजार करना चाहिए और न ही मौसम का। जब भी किसी को मोतियाबिंद की शिकायत हो इसका इलाज तुरंत करवा लेना चाहिए।

सर्जरी से होता है इलाज

सामान्यतः लोग मानते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज लेजर से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर से नहीं किया जा सकता है। इसका एकमात्र इलाज सर्जरी है। इसकी सबसे सटीक और अत्याधुनिक तकनीक है फेकोइमल्सीफिकेशन। इसमें मरीज की आंख में एक लेंस लगा दिया जाता है। यह लेंस कई प्रकार की होते हैं।

- ▶ मोनो फोकल
- ▶ बाई फोकल
- ▶ मल्टी फोकल

डॉक्टरों की सलाह है कि मरीज को मल्टी फोकल लेंस ही लगाने चाहिए। इससे मरीज को बाद में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑपरेशन में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं।

चश्मे की जरूरत नहीं

आमतौर पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पांच फीसदी मामलों में मरीज को चश्मे लगाने पड़ सकते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि मोतियाबिंद के

मरीजों को ऑपरेशन करवाने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और इसका इलाज शुरुआती दौर में ही करा लेना चाहिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत ज्यादा सावधानियां भी नहीं बरतनी पड़ती हैं और एक दिन के अंतराल के बाद मरीज सामान्य रूप से देखने भी लगता है। ●



लौंग के वृक्ष सुंदर और सुगंधित होते हैं।

इसके पत्ते भी सुगंधित होते हैं। इसके फूल की कलियों को लौंग कहते हैं।

बाजार में जो लौंग मिलते हैं, उनमें से बहुतेकों का तेल निकाला हुआ होता है। असली लौंग वही होता है, जिससे तेल न निकाला गया हो। भावप्रकाश के अनुसार लौंग

चरपरी, कड़वी, नेत्र-हितकारी, शीतल, दीपन, पाचन, रुचिकारक तथा कफ, पित्त, रक्तरोग, प्या, मूर्च्छा, अफरा, दर्द, खांसी, हिचकी व क्षयरोग नाशक हैं। राजनिघंटु के अनुसार लौंग गरम, तीक्ष्ण, पाक के समग्र मधुर, शीतवीर्य तथा त्रिदोष, आम, क्षय व खांसी नाशक है।

मिटती है।

- गठिया : लौंग के तेल की मालिश से गठिया के दर्द में लाभ होता है।
- सिरदर्द : इसमें लौंग के तेल की माथे पर मालिश करें।
- दांत का दर्द : दांत दर्द में लौंग के तेल को दांत की कोचर में रखें।
- सांस की दुर्गंध : मुंह में लौंग रखने से से मुंह और सांस की दुर्गंध दूर होती है।
- नेत्र रोग : तबिके के पात्र में लौंग को पीसकर शहद मिलाकर आंखों के सफेद भाग के रोग मिटते हैं।
- हृदय में रक्तसंचार : लौंग को ठंडे पानी में घोट-छानकर मिश्री मिलाकर पिएं।
- कुकर खांसी : लौंग को आग में भूतकर शहद मिलाकर चांटे।
- अजीर्ण : लौंग और हरडु का गाढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक डालकर पिलाएं।
- जी मिचलाना : लौंग को पानी में घोटकर कुनकुना कर पिलाएं, इससे प्यास और जी मिचलाना मिटता है।
- नासूर : लौंग और हल्दी पीसकर लगाएं।
- मात्रा : लौंग की मात्रा 120 से 250 मि.ग्रा. तक की है। ●

निरोगी बनाती है

लौंग

उपयोग किया जाता है।

लौंग मूल्य है, इस कारण यह मूत्रपिण्ड के मार्ग की शुद्धि करता है और शरीर के बाहरी भाग पर इसको लगाने से यह चेतनाकारक, वेदननाशक, व्रणशोधक और व्रणरोपक है।

● ज्वर : लौंग और चिरायता बराबर मात्रा में लेकर पानी में घोटकर पिलाएं। इससे ज्वर और उसके बाद की निर्बलता

प्राणायाम से पाएं दीर्घायु

ते द और योग में आठ प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है, जिनमें जीव विचरण करते हैं। प्राण, अपान, समान आदि वायुओं से मन को रोकने और शरीर को साधने को अभ्यास करना अर्थात् प्राणों को आयाम देना ही प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणवायु या शक्ति का विस्तार। सबसे निहित है प्राणशक्ति। प्राणायाम करने से व्यक्ति अपनी आयु भी बढ़ा सकता है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी श्वास में परेशान नहीं हो सकती। ●

लो

ग पाचन क्रिया पर सीधा प्रभावी है, जिससे भूख बढ़ती है, आमाशय की रसक्रिया को बल मिलता है और मन प्रसन्न होता है।

यह कुमिनाशक है। आमाशय और आंतों में रहने वाले सूक्ष्म जंतुओं के कारण पेट फूलता है, यह उन जंतुओं को यह नष्ट करता है। यह रक्त में श्वेतकणों को बढ़ाता है। इस गुण के कारण शरीर में रहने वाले रोगमूलक कीटाणुओं को नाश होता है।

यह चेतनाशक्ति जागृत करता है। इसका यह गुण हृदय रक्तसंचार और तेजी से सांस लेने छोड़ने पर स्पष्ट दिखाता है। इस कारण त्रिदोष और सन्निपात में दी जाने वाली औषधियों में इसको मिलाया जाता है। यह शरीर की दुर्गंध को नष्ट करता है। कफ, लार और मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने में



मुस्कुराकर मिलाएं झुरियां

चेहरे को उम्र घटाना हो तो इसके लिए मुस्कुराहट एक उत्तम व्यायाम है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुस्कुराते हुए आप सुंदर तो दिखती ही हैं। साथ ही मुस्कुराने से चेहरे पर आती झुरियां को रोका भी जा सकता है, तो फिर मुस्कुराने के लिए हो जाइए तैयार। यह मुस्कुराहट भरा व्यायाम करने के लिए होंठों के कोनों को कानों की ओर फैला कर रलो मूवमेंट में मुस्कुराना शुरू कीजिए। हर मूवमेंट के साथ अपनी मुस्कुराहट कुछ चौड़ी कीजिए। यह करते हुए आप निचले होंठ और तुडुकी को स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। वैसे ही जैसे ई बोलने के लिए करती हैं। कम से कम कुछ मर्तबा यह व्यायाम कीजिए। ये व्यायाम मन शांत रखता है और इससे आपका चेहरा स्वतः ही खिल उठता है। चेहरे के व्यायाम के साथ-साथ मुस्कुराहट आपके मन को भी शांत रखने का कार्य करती है। इससे आपका उत्साह बना रहता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है और आपका चेहरा स्वतः ही खिल उठता है।



एकदिवसीय विश्वकप के लिए टीम में वापसी चाहते हैं बोल्ट

क्राइस्टचर्च । न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेट बोल्ट ने कहा है कि वह इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप में खेलना चाहते हैं। बोल्ट ने टी20 लीग खेलने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ सालाना अनुबंध नहीं किया है पर वह इस साल के अंत में भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप में खेलना चाहते हैं। इससे पहले बोल्ट ने कहा था कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और दुनिया भर में फेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट का अनुबंध नहीं चाहते हैं। बोल्ट गत वर्ष हुए टी20 विश्व कप के बाद से ही टीम से बाहर हैं क्योंकि चयनकर्ताओं ने अनुबंधित खिलाड़ियों को ही टीम में जगह दी है। वहीं अब बोल्ट ने कहा, 'मेरी अब भी पूरी इच्छा है कि मैं न्यूजीलैंड की तरफ से इस आईसीसी टूर्नामेंट में खेलूं। मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे न्यूजीलैंड की तरफ से 13 साल तक खेलने का मौका मिला। न्यूजीलैंड की टीम साल 2019 में विश्व कप फाइनल में पहुंचकर हार गयी थी पर इस तेज गेंदबाज के अनुसार उनकी टीम भारत में अक्टूबर-नवंबर में विजेता बन सकती है उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि 2019 के फाइनल के बाद मैंने कप्तान केन विलियमसन से कहा था कि हमें भारत में 2023 में फिर से यहां पर पहुंचना है।

आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर में आज होगा मुम्बई और गुजरात में मुकाबला

अहमदाबाद । (एजेंसी)

मुंबई इंडियंस की टीम शुक्रवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स पर जीत के साथ ही फाइनल में जगह बनाने उतरेगी। मुंबई की टीम पहले एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ मिली बड़ी जीत से उत्साहित है। टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में अच्छा स्कोर बनाया था। उसके बाद गेंदबाजी के दौरान युवा आकाश मधवाल ने कमाल करते हुए पांच रन देकर पांच विकेट लिए। इससे टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और वह जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर गुजरात को पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके)

के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसपर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। गुजरात के लिए सकारात्मक बात ये है कि वह अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगी जिसका लाभ उसे मिलेगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आचर जैसे खिलाड़ियों को अनुपस्थिति के बाद भी मुंबई की यह बड़ी जीत से भी गुजरात पर दबाव पड़ेगा। मुंबई का इस सत्र में प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है पर लगातार है कि उसकी टीम सही समय पर फॉर्म में लौट गयी है। बल्लेबाजी में टीम की जिम्मेदारी कैमरन ग्रीन, सूर्यकुमार यादव और टिम डेविड पर रहेगी। उनके अलावा युवा बल्लेबाज नेहल बढेय भी अंतिम ओवरों में बड़ा स्कोर बना रहे हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी भी लय में है

जिससे मुंबई के इस मैच में जीतने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। इन बल्लेबाजों को रोकेना गुजरात के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। गुजरात की कप्तान अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर राशिद खान पर रहेगी। मधवाल ने लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच में गेंदबाजी में चमत्कारिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 3.5 ओवर में पांच रन देकर पांच विकेट लिए। टीम को उससे इसी तरह के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऐसे में उनका सामना करना गुजरात के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। मुंबई के अन्य गेंदबाजों में अनुभवी लेग स्पिनर पीयूष चावला और तेज गेंदबाज जेसन बेहेरेंडॉर्फ ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले कुछ मैचों में रन देने वाले तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने लखनऊ

के खिलाफ दो ओवर में सात रन देकर एक विकेट लिया जो कि मुंबई के लिए अच्छा संकेत है। गुजरात टाइटन्स पहले क्वालीफायर में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से हार का सामना करने के बाद इस मैच में उतरेगी। उसे लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। गुजरात के सभी खिलाड़ियों ने अभी तक अहम योगदान दिया है। बल्लेबाजी में शुभमन गिल शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा विजय शंकर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शुभमन चेत्राई के खिलाफ अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे लेकिन लीग चरण के अंतिम दो मैचों में शतक लगाने वाला यह सलामी बल्लेबाज मुंबई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा।

एफसी अंडर 23 एशियाई कप फुटबॉल क्वालीफायर में भारतीय टीम चीन, यूई से खेलेंगी

नई दिल्ली । (एजेंसी)

अगले साल कतर में होने वाले एफसी अंडर 23 एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वालीफायर मुकाबले के लिए कुआलालंपुर स्थित मुख्यालय में ड्रा निकाले गये हैं। इसमें भारतीय टीम को गुप जी में जगह मिली है। भारतीय टीम के साथ इसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूई), मालदीव और चीन की टीमें हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मैच छह से 12 सितंबर के बीच चीन में होंगे। भारतीय टीम का पहला मैच छह सितंबर को मालदीव से होगा। इसके बाद वह नौ सितंबर को चीन और 12 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात यूई से खेलेंगी। क्वालीफायर्स में कुल 43 टीमें भाग लेंगी इन्हें 11 गुप में रखा गया है। इनमें 10 गुप में चार चार जबकि एक गुप में तीन टीमें रखी गयी हैं। प्रत्येक गुप के मैच एक ही आयोजन स्थल पर राउंड रोबिन आधार पर होंगे। इसमें से प्रत्येक गुप से शीप पर रहने वाली टीम के साथ ही



दूसरे स्थान की चार सर्वश्रेष्ठ टीमें अंडर 23 एशिया कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। कतर को मेजबान होने के कारण इस टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश दिया गया है। यह टूर्नामेंट अगले साल 15 अप्रैल से तीन मई तक खेला जाएगा। एफसी अंडर 23 एशियाई कप पेरिस ओलिंपिक के लिए भी क्वालीफायर होगा। इस प्रतियोगिता में शीप पर रहने वाली तीन टीमों को ओलिंपिक में जगह मिलेगी जबकि चौथी टीम प्लेऑफ में उतरेगी।

जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की शानदार शुरुआत, पहले ही मुकाबले में चीनी ताइपे को 18-0 से हराया

सालालाह । भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहां शुरू हुए जूनियर एशिया कप में शानदार शुरुआत करते हुए पुल ए के पहले ही मुकाबले में चीनी ताइपे को 18-0 से हरा दिया। भारतीय टीम के सामने चीनी ताइपे की टीम टिक नहीं पायी। भारतीय टीम की ओर से अरिजीत सिंह हुंदल ने चार गोल किये। अरिजीत ने 19वें, 29वें, 30वें, 59वें मिनट में ये गोल दामे। इसके अलावा अमनदीप ने 38वें, 39वें, 41वें मिनट में गोल कर हैट्रिक लगायी जबकि बांकी सिंह धामी ने 10वें और 46वें मिनट में गोल किये। आदित्य अर्जुन ललागे ने 37वें और 39वें मिनट और कप्तान उत्तम सिंह ने 10वें और 59वें मिनट में दो-दो गोल किए। शारदा नंद तिवारी ने 11वें व अंगद बीर सिंह ने 37वें मिनट में गोल किया। अमिर् अली ने 51वें, बोबी पूव्वा चंद्रा ने 54वें और योगांवर रावत ने 60वें मिनट में एक-एक गोल किया।



एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल टीम के लिए अच्छा : गुरप्रीत सिंह संधू

(एजेंसी)।

भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू का मानना है कि एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना टीम के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इससे खिलाड़ियों को अपने कौशल को चमकाने का अच्छा मौका मिलता है। भारत अभूतपूर्व संख्या में मैच खेलने के लिए तैयार है, घरेलू मैदान पर बैक-टू-बैक अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट - भुवनेश्वर में इंटरकांटिनेंटल कप और बंगलुरु में सैफ चैम्पियनशिप, इसके बाद थाईलैंड में किंग्स कप (सितंबर) और मलेशिया में मर्डेका कप (अक्टूबर) गुरप्रीत ने कहा, बैक-टू-बैक टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे सामने

अच्छी संख्या में मैच हैं और यह ऐसी चीज है जिसकी मैं व्यक्तिगत रूप से सराहा करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी ऐसा किया है। उन्होंने कहा, इस तरह के टूर्नामेंट हमेशा एक चुनौती होते हैं, लेकिन वे अच्छे टूर्नामेंट के खिलाफ हमारे कौशल को चमकाने और यहां तक कि कुछ सिस्टरवेयर जीतने का भी एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में, कतर में अगले साल जनवरी में होने वाले एफसी एशियन कप की तैयारी के रास्ते पर, ब्लू टाइगर्स इंटरकांटिनेंटल कप से पहले भुवनेश्वर में अपने प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एशिया कप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मिलने वाले हर अवसर पर अधिक प्रतिस्पर्धी खेल

खेलने की जरूरत है, जो एशियाई कप की तैयारी में हमारे लिए अच्छा होगा। टीम को एक साथ लाने के लिए, प्रत्येक के साथ अधिक समय बिताने के लिए, और टीम के खेलने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाना हमारे लिए अच्छा होगा। भारत ने 40 खिलाड़ियों के साथ भुवनेश्वर में अपना शिविर शुरू किया, इससे पहले कि कोचिंग स्टाफ द्वारा कुछ दिनों के कठोर शारीरिक परीक्षण के बाद टीम को 27 तक छोटा कर दिया गया। गुरप्रीत ने कहा, शिविर में पिछले कुछ दिन अच्छे रहे हैं। बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं, जहां हमें विभिन्न परिस्थितियों में रखा गया है। ओडिशा में सुविधाएं हमारे लिए अद्भुत रही हैं। भुवनेश्वर में वह सब कुछ है जो एक

खिलाड़ी मांग सकता है। प्रशिक्षण सुविधाओं, ड्रेसिंग रूम, रिकवरी, जिम और फिटनेस उपकरणों के मामले में, यह सब शीप पायदान पर है। एक खिलाड़ी के रूप में, आप वास्तव में हर प्रशिक्षण सत्र में जाना चाहेंगे। भारतीय गोलकीपर को लगता है कि टीम का कोर पिछले साल की तुलना में काफी स्थिर रहा है, खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, पिच पर सुरक्षित स्थिति के मामले में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन कई खिलाड़ी पिछले साल से लगातार टीम में हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम उम्मीद करते हैं कि टीम कुछ जगह जाएगी तो यह निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है।

क्रुणाल ने हारी की जिम्मेदारी स्वीकार ली, बोले मुझे वह शॉट नहीं खेलना चाहिये था

चेन्नई । (एजेंसी)

लखनऊ सुपरजाइंट्स के कप्तान क्रुणाल पंड्या ने कहा है कि आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हाथों मिली हार की जिम्मेदारी वह लेते हैं। इस मैच में लखनऊ टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए विफल रही और उसे 81 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मार्कस स्टोइनिस 40 के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज रन नहीं बना पाया। मुंबई ने इस मैच में 182 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गयी पर इसके बाद

मार्कस स्टोइनिस ने पारी को संभालने का प्रयास शुरू किया इसमें उन्हें सफलता भी मिलने लगी थी पर तभी क्रुणाल ने एक बड़ा शॉट लगाने के फेर में अपना विकेट खो दिया। क्रुणाल ने माना है कि उन्हें वह शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'हम वास्तव में अच्छी स्थिति में थे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने वह शॉट खेला था। मैं इसमें अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। क्रुणाल ने कहा कि विकेट में कोई समस्या नहीं थी, इसके बाद



भी उनकी टीम बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, 'विकेट दोनों पारियों में समान रूप से व्यवहार कर रहा था। वहीं क्रिंटन डिकॉक की जगह काइल मायर्स को शामिल करने के फैसले का भी उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि मायर्स का रिकार्ड डिकॉक से बेहतर रहा है। इसी कारण उन्हें जगह दी गयी।

आईपीएल फाइनल देखने भारत आयेगे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष

एशिया कप विवाद का निकलेगा हल

मुम्बई । इसी माह 28 मई को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल फाइनल को देखने के लिए तीन पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी भारत आयेगे। इसी दौरान एशिया कप को लेकर जारी विवाद का भी हल निकलने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने कहा कि एशिया कप के आयोजन स्थल का फैसला आईपीएल फाइनल के बाद होने वाली बैठक में किया जाएगा जिसमें एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के शीप पदाधिकारी भाग लेंगे। जय शाह ने कहा, 'अभी तक एशिया कप के आयोजन स्थल को लेकर फैसला नहीं किया गया है। हम अभी आईपीएल में व्यस्त थे लेकिन श्रीलंका क्रिकेट, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शीप पदाधिकारी आईपीएल फाइनल देखने के लिए आ रहे हैं। वहीं हम इस पर चर्चा करके सही समय पर फैसला करेंगे। इस साल एशिया कप की मेजबानी पाक का मिली है पर भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान दौरे से माना कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से अध्यक्ष नजम सेठी ने एक 'हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जिससे कि चार मैच का आयोजन उनके देश में हो सकता है। एसीसी के नुपॉल के अनुसार सेठी के इस फार्मूले के अनुसार श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के लीग चरण के चार मैच पाकिस्तान में होंगे जबकि भारत अपने मैच अन्य जगहों पर खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच श्रीलंका में खेला जा सकता है हालांकि पीसीबी यह मैच दुबई में करवाना चाहता है। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर भी तैयार नहीं है जिससे विवाद गहरा गया है।



संक्षिप्त समाचार



यूटीटी लीग के लिए शरत, साथियान और मनिंका को फ्रैंचाइजियों ने बरकरार रखा

मुंबई । दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल और जी साथियान को उनकी फ्रैंचाइजियों ने अल्टीमेट टैबल टेनिस (यूटीटी) लीग के चौथे सत्र के लिए अपने साथ बनाये रखा है। साथियान को गत चैंपियन चेन्नई लायंस ने जबकि दबंग दिल्ली टीटीसी ने साथियान को अपने साथ रखा है। वहीं महिला खिलाड़ी मनिंका बत्रा इस बार भी बंगलुरु स्मैशर्स की ओर से खेलती हुई दिखेंगी। मानव ठक्कर को यू मुंबा टीटी ने शामिल किया है। पुणे के बालेवाड़ी खेल परिसर में 13 से 30 जुलाई तक खेले जाने वाली लीग के इस सत्र में छह टीमें भाग लेंगी। इसमें बंगलुरु स्मैशर्स, चेन्नई लायंस, दबंग दिल्ली टीटीसी, गोवा चैलेंजर्स, पुणेरी पल्टन टेबल टेनिस और यू मुंबा टीटी हैं। वहीं हाल ही में यूटीटी के चौथे सत्र के कोच ड्राफ्ट में हर फेंचाइजी को दो कोच चयनित करने का अवसर दिया गया था। ऐसे अब सभी की नजरें मुंबई में अगले महीने होने वाले चौथे सत्र के खिलाड़ी ड्राफ्ट पर लगी हुई हैं। इसमें छह-छह खिलाड़ियों को टीमें रहेंगी। इस ड्राफ्ट में 40 खिलाड़ी रहेंगे इसमें से हर टीम दो विदेशी (एक पुरुष और एक महिला) और चार भारतीय (दो पुरुष और दो महिला) खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है।

अपने को बुमराह का विकल्प नहीं मानते मधवाल



(चेन्नई) आईपीएल के पहले क्वालीफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले आकाश मधवाल अपने को अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का विकल्प नहीं मानते। आकाश के अनुसार टीम ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी थीं उन्हें वह पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। मधवाल ने 3.3 ओवरों में ही पांच रन देकर पांच विकेट लिए थे जिससे लखनऊ की बल्लेबाजी ध्वस्त हो गयी थी। मधवाल ने कहा, 'मैं टीम द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बुमराह का विकल्प नहीं हूँ हालांकि मैं जो कर सकता हूँ उसे करने के लिए अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ।' मधवाल ने कहा, 'चेपक का विकेट अच्छा था। इसमें गेंद रुककर नहीं आ रही थी बल्कि तेजी से निकल रही थी जिसका मुझे लाभ मिला। मैं रिविंग गेंदबाज हूँ और कटिन लेंथ पर गेंदबाजी करके अपने लिए विकेट हासिल करने का प्रयास करता हूँ।' मधवाल ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा को पता है कि टीम को ताकत क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा, 'कप्तान को पता है कि यॉर्कर मेरी गेंदबाज का मजबूत पक्ष है पर नेट सत्र और अभ्यास मुकाबलों के दौरान उन्हें पता चला कि मैं नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकता हूँ।' मधवाल ने कहा, 'इसलिए उन्हें पता था कि स्थिति की जरूरत के अनुसार किस प्रकार से मेरा उपयोग करना है।'

(गोरखपुर) खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत गोरखपुर कर रहा रोडिंग प्रतियोगिता की मेजबानी

गोरखपुर । (एजेंसी)

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोडिंग प्रतियोगिता की मेजबानी गोरखपुर करेगा। गुरुवार शाम रामगढ़ताल एक अलग स्वरूप में नजर आ रहा था। विस्तार और अंगार जलराशि से लबरेज, योगी सरकार के प्रयासों से अनुपम छटा वाले इसी रामगढ़ताल में शनिवार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत पांच दिन तक रोडिंग प्रतियोगिता का रोमांच जवां होगा।

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों के विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने गुरुवार से गर्व से गौरव के उद्घोष के बीच पूर्वान्यास शुरू कर दिया। पूर्वान्यास शुरू करने से पहले खिलाड़ी काफी देर तक उत्सुकता से रामगढ़ताल का दीदार करते रहे। गुरुवार शाम सिंगल, डबल और चार की संख्या में खिलाड़ियों ने मुख्य प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व अपनी तैयारियों की परख की। रोडिंग को पहली बार खेलो इंडिया

यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया गया है। 27 से 31 मई तक चलने वाली रोडिंग प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों की सभी सुख सुविधाओं के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। 2 किमी व 500 मीटर की दूरी वाली प्रतियोगिता के लिए रामगढ़ ताल में चार लेन बनाए गए हैं। रोडिंग के प्रतियोगिता निदेशक सुधीर शर्मा ने मुताबिक रामगढ़ताल में जल क्रीड़ा कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव नवनवी

सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्श में खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के साथ ही गोरखपुर में रोडिंग प्रतियोगिता का रोमांच अभी से नजर आने लगा है। शनिवार, 27 मई से सुरम्य रामगढ़ताल में रोडिंग प्रतियोगिता की धूम मचेगी। अब तक रामगढ़ताल की पहचान सीएम योगी के प्रयास से निखरे पर्यटन स्थल की है, अब यह देश में वाटर स्पोर्ट्स के प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित होगा।



रोम में इटालियन कप फुटबॉल में जीत के बाद उत्साहित एफसी इंटर टीम टॉफी के साथ जश्न मनाती हुई!

गुजरात शिक्षा बोर्ड ने जारी किया कक्षा 10 का परिणाम

अहमदाबाद। गुजरात शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 10 का परिणाम जारी कर दिया। शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट gseb.org पर परिणाम उपलब्ध है। कक्षा 10 का 64.62 प्रतिशत परिणाम आया है। राज्यभर में 6111 विद्यार्थियों ने ए-1 ग्रेड प्राप्त किया है। सूरत जिले का राज्यभर में सबसे अधिक 76.45 प्रतिशत परिणाम आया है। जबकि सबसे कम दाहोद जिले का 40.75 प्रतिशत रहा। राज्य में 1084 स्कूलों का 30 प्रतिशत से कम परिणाम आया है। मार्च 2023 में ली गई कक्षा 10 की परीक्षा में 741411 नियमित विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 734898 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसमें 16 प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। जबकि रिपीटर के तौर पर 165690 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 158623 परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें 27446 रिपीटर विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने से उनका 17.30 प्रतिशत परिणाम सामने आया है। इसके अलावा निजी परीक्षार्थी के तौर पर कुल 16745 में से 14635 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जिसमें 1915 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 10 की परीक्षा में राज्यभर में कुल 9 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। गुजरात शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट gseb.org पर विद्यार्थी अपने नतीजे देख सकते हैं। इसके अलावा वॉट्सएप नंबर 6357300971 पर सीट नंबर भेजकर भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष आधा प्रतिशत परिणाम कम आया है। सबसे ज्यादा परिणाम प्राप्त करने वाला केन्द्र बनासकांठा का कुंभारिया है। कुंभारिया केन्द्र ने 95.92 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। जबकि नर्मदा जिले के उतावली केन्द्र ने सबसे कम 11.94 प्रतिशत नतीजे प्राप्त किए हैं। जबकि सबसे अधिक 76.45 प्रतिशत परिणाम प्राप्त कर सूरत राज्यभर में टॉप पर रहा। वहीं सबसे कम दाहोद जिले का 40.75 प्रतिशत परिणाम आया है। राज्य की 272 स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। जबकि 108 4 स्कूलों का परिणाम 30 प्रतिशत से भी कम आया है। वहीं शून्य परिणाम प्राप्त करने वाली स्कूलों की संख्या 157 है। राज्यभर में 6111 विद्यार्थियों ने ए-1 ग्रेड प्राप्त किया है।

द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल का परिणाम



रहा है जिसमें 75 प्रतिशत छात्रों ने 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।

अभय राज 95.6% के साथ पहली रैंक होर जिवानी 94.8% के साथ दूसरे नंबर पर हैं मनीष कुमार बसनेट 91.6% के साथ तीसरी रैंक हासिल किया था

समग्र श्रेष्ठ परिणामों में विद्यालय के शिक्षकों का योगदान बहुत अधिक रहा। अतः विद्यालय के ट्यूटोर एवं प्रबंध निदेशक श्री किशनभाई मोहिकिया ने बच्चों को मिठाई और फूल देकर बधाई दी और उनके बेहतरीन भविष्य की कामना की। साथ ही विद्यालय परिसर निदेशक एवं विद्यालय प्राचार्य ने छात्रों एवं अभिभावकों को ध्यान दिया गया सहयोग की सराहना की तथा बच्चों एवं अभिभावकों के स्वस्थ होने की कामना की।

सूरत। द रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा ने इस वर्ष मार्च 2023 में आयोजित किया था, जिसमें कुल 109 बच्चों ने आवेदन किया था और सोबीएसई द्वारा दिनांक 12-05-2023 को घोषित परिणाम में कुल 9 छात्रों ने A1 और 16 से अधिक छात्रों ने A2 स्कोर किया था। स्कूल का परिणाम शत प्रतिशत



सूरत। सूरत पाल स्थित स्कूल एल.पी.सवानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने कक्षा-10 गुजरात बोर्ड एसएससी-2023 में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रौशन किया है। कुल 7 छात्रों को ए-1 ग्रेड मिला है। वहीं कुल 27 छात्रों को ए-टू ग्रेड मिला है। साइंस में छात्र घुमानी रितेश कुमार ने 95.17 परसेंटाइल और पेटेल हाडी ने 100 में से 100 अंक हासिल किए।

श्री शारदा विद्यामंदिर सिंगनपुर स्थित स्कूल का 10वीं कक्षा का शानदार परिणाम

सूरत। श्री शारदा विद्यामंदिर सिंगनपुर स्थित स्कूल का 10वीं कक्षा का शानदार परिणाम 94.98 के स्कूल परिणाम के साथ धमेलिया दिव्य ने ए1 रैंक में 99.83 के साथ स्कूल में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर नवदिया जेनिल 99.33 ए1 रैंक है। वहीं तीसरी रैंक में काडू कशिष ने 99.13 ए2 रैंक हासिल की है। कुल 38 छात्रों को ए2 में रखा गया है और 55 छात्रों को बी1 में रखा गया है। 90 के साथ कुल 64 छात्र पास हुए हैं अप पीआर स्कूल के ट्यूटोर डॉ जेडपी खेनी साहिब और उपाध्यक्ष हर्षदभाई मवानी मंत्री श्री सावजीभाई पटेल प्रशासक श्री जामिनभाई



पटेल ने सभी छात्रों और माता-पिता मित्रों और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के पूरे स्टाफ को बधाई दी है।

श्री स्वामीनारायण एच वी विद्यालय की उपलब्धि पूरे सूरत में फैले एल.पी.सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्रों ने कक्षा-10 का शानदार परिणाम दिया है

सूरत। ज्ञान शिक्षा और संस्कारों के अडाजन यानी त्रिवेणी संगम में स्थित श्री स्वामीनारायण एचवी विद्यालय पिछले 25 वर्षों से लगातार शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र की सेवा करने के उद्देश्य से समर्पित है। स्कूल पिछले 25 वर्षों से लगातार 10वीं कक्षा में शत प्रतिशत परिणाम देने में सफल रहा है। आचार्य श्री केतनकुमार व्यास, पर्यवेक्षक श्रीमती वर्षाबेन एवं सभी शिक्षकों की मेहनत और प्रोत्साहन गिनाते हुए इस वर्ष भी 10वीं कक्षा का शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुआ है, 10वीं कक्षा के कुल 82 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी ए1 ग्रेड में तथा 23 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं छात्र 42 ग्रेड के साथ पास हुए हैं।



हरिवल्लभदासजी हैं छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं। प्रशासक गोंडलिया, सभी छात्र, कर्मचारी मित्र और अभिभावक उनके उचित समन्वय से ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। जिसके लिए सभी को बधाई दी गई है।

सूरत। ए1 ग्रेड में 38 विद्यार्थियों, ए2 ग्रेड में 218 विद्यार्थियों, बी1 ग्रेड में 228 विद्यार्थियों, बी2 ग्रेड में 164 विद्यार्थियों ने बहुत ही गौरवपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सूरत शहर के रूपा ऑफ स्कूल्स स्कूलों का नाम रौशन किया है। एल.पी.सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का रिजल्ट 95.28 रहा है।



छात्रों द्वारा की गई कड़ी मेहनत, अनुभवी शिक्षकों की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन और माता-पिता के सराहनीय सहयोग के माध्यम से, छात्रों ने इस बात को कायम रखा है कि "जो धैर्य रखा जा सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है" स्कूल के अध्यक्ष श्री मावजीभाई सवानी व मित्र और पूरे स्कूल परिवार को छात्रों की सफलता के लिए एक उच्च भविष्य का पाठ दिया है।

भक्तों से ही भगवान का अस्तित्व है - विजय कौशलजी महाराज



सूरत भूमि, सूरत।

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा वीआईपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर, सूरतधाम में आयोजित आठ दिवसीय "श्री श्याम आशीर्वाद" महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्री राम कथा में गुरुवार को भगवान राम के विवाह एवं अहिल्या की कथा का वाचन किया गया। व्यासपीठ से विजय कौशल जी महाराज ने कहा कि भक्तों से ही

भगवान का अस्तित्व है। भक्तों को जब संकट आता है तब वो भगवान को पुकारते हैं। भगवान को उनका संकट हलना पड़ता है। काम नहीं होने पर भक्त भगवान बदल लेते हैं। महाराज ने कहा कि अहिल्या को सारे समाज ने त्याग दिया था। परन्तु वो भगवानके भरोसे रही तो भगवान ने उसका उद्धार किया। महाराज ने कहा की भूल कला अपराध नहीं है बल्कि एक भूल


को बार-बार करना अपराध है। इस मौके पर आयोजन के संयोजक योगेश जाखलिया एवं ट्रस्ट के ओमप्रकाश सिंहोटिया, रामअवतार सिंहोटिया, सुंदर तोलासरिया, राकेश खटोड, मुकेश गाडोदिया, सोनू अग्रवाल सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहे।

महोत्सव में शाम सात बजे से आयोजित विशाल भजन संध्या में गुरुवार को स्थानीय भजन गायक के अलावा वाद्ययंत्रों से आमंत्रित गायक कलाकार संजीव शर्मा ने भजनों एवं धमाल की प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आयोजन में शुभ्रवार को शाम चार बजे से श्री राम कथा का वाचन होगा एवं शाम सात बजे से आयोजित भजन संध्या में कोलकाता से आमंत्रित गायक कलाकार जयशंकर चौधरी भजनों की प्रस्तुति देंगे।

पीएम मोदी के बड़े भाई की देशभर के तेली समाज से 'मोदी सरनेम' लिखने की अपील


अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमाभाई मोदी ने देशभर के तेली समाज से अपील की है कि वे अपनी सरनेम 'मोदी' लिखें। सोमाभाई की यह अपील ऐसे समय में आई जब कांग्रेस नेता द्रष्टु के अध्यक्ष हैं और उन्होंने मोदी समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से 2015 में ट्रस्ट का गठन किया था। वर्ष 2018 के दौरान सूरत में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हाल ही में मोदी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। सम्मेलन में सोमाभाई मोदी ने दावा किया कि देशभर में मोदी समाज की आबादी करीब 13 करोड़ है। जिसमें राठौड़, साहू, मोह, घांची, तेली, क्षत्रिय समेत कई सरनेम के लोग शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस नेता के वकील ने मोदी समाज के अस्तित्व को नकारते हुए दावा करते हैं कि मोदी समाज का कोई रिकार्ड नहीं है। इस सरनेम का उपयोग अन्य जाति व धर्म के लोग भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी पहचान की चिंता नहीं करता वह समाज बिखर जाता है। इसलिए देशभर के तेली समाज से अपील करता हूँ कि वह अपनी सरनेम मोदी लिखें। अगर कोई समस्या है तो ब्रेकेट में मोदी लिखें, परन्तु लिखें जरूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशभर का तेली समाज अपनी सरनेम मोदी लिखेगा। सोमाभाई ने कहा कि आज देश-विदेश में मोदी का नाम गुंज रहा है। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता की ओर था।

गौरतलब है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया है। पूर्णेश मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विवाहित टिप्पणी कर मोदी समाज का अपमान किया है। मोहेश्वरी माता के उपासक माना जाता है। मेहसाणा जिले में मोदी समाज की कुलदेवी का मंदिर भी है। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोहेश्वरी मंदिर में दर्शन करने गए थे।



अध्यक्ष हैं। मोदी समाज को मोहेश्वरी माता के उपासक माना जाता है। मेहसाणा जिले में मोदी समाज की कुलदेवी का मंदिर भी है। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोहेश्वरी मंदिर में दर्शन करने गए थे।

सनातन के लिए आज नहीं जागे तो आनेवाले पीढ़ियों में रामकथा नहीं होगी : बाबा बागेश्वर



सूरत। दक्षिण गुजरात के सूरत में कल से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दो दिवसीय दिव्य दरबार लगेगा। उससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अहमदाबाद पहुंच गए और महाराज देवकीनंदन के कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि

सनातन धर्म के लिए आज अगर नहीं जागे तो आनेवाली पीढ़ियों में रामकथा नहीं होगी। वह कायर और डरपोक ही होंगे जो सनातन के लिए नहीं जागेंगे। इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अहमदाबाद के अमराईवाडी क्षेत्र में रहनेवाले कांग्रेस नेता अरविंद चौहाण के यहां भोजन किया। दोपहर 3 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वटवा में चल रहे महाराज देवकीनंदन के शिवपुराण कार्यक्रम में पहुंचे। शिवपुराण कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अहमदाबाद सुंदर शहर है, प्रत्येक सनातनी रहता है। भक्ति के प्रदेश गुजरात की धरती को बार बार प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए जगने का समय आ गया है। वह लोग डरपोक और कायर होंगे जो अब भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं जागेंगे। भक्ति के प्रदेश गुजरात में जहां सनातन धर्म की धारा बह रही है वहां सनातन को लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान शंकर का ही स्वरूप हैं। शंकर भगवान के हृदय में हनुमान जी का वास है और उनकी पूंछ पार्वती का रूप है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुजरातियों को लेकर कहा कि गुजरात के लोग खतरनाक हैं

और उसमें अहमदाबाद के। गुजरात के लोगों को खामोश कराना उतना ही मुश्किल है जितना उनका दिल जीतना। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना है और उसमें आप सभी का योगदान होगा। भगवान श्री राम को अयोध्या में बिराजमान कर दिया है। अब बारी है भगवान कृष्ण को बिराजमान करने की। ऐसे में सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि सीताराम और हनुमान जी जिनके साथ हों उन्हें डर किस बात का? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए आह्वान करते हुए कहा कि सनातन विरोधियों की ठठरी बाँसें। अगर अब भी नहीं जागे तो आनेवाली पीढ़ियों में रामकथा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम

गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला प्रशासन अधिकारियों से आम नागरिकों की समस्या तथा शिकायतों के शीघ्रनिवारण स्थानीय स्तर पर ही करने तथा इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट दिशानिर्देश देते हुए कहा कि ऐसीयाचिकाकर्ताओं-नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए राज्य स्तर तक आना हीना पड़े इसलिए उनकी समस्याओं का निवारण जिला स्तर पर आसानी से होना चाहिए। मुख्यमंत्री पटेल ने राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन शिकायत निवारण कार्यक्रम में की गई शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को सामान्य वर्ग-नागरिकों की

समस्याओं के प्रस्तुतिकरण एवं उनके उचित निवारण हेतु मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय स्वागतकार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने कार्यालय की जनसंपर्क इकाई में आयोजित राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इतना ही नहीं उन्होंने शिकायतकर्ताओं की बात को संवेदना तथा धैर्यपूर्वक सुना तथा जिलाधिकारियों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष गुरुवार, 25 मई को इस राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम में महिलासगर, अरवल्लो तथा मेहसाणा जिलों के विभिन्न आवेदकों ने प्रत्यक्ष रूप से आकर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारियों से शिकायतों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की तथा इसके निवारण के लिए उचित कार्रवाई करने का मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने स्वागत कार्यक्रम के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए राज्य स्तरीय स्वागत सप्ताह की रिपोर्ट पुस्तिका का विमोचन किया। यहां यह ध्यान देना जरूरी है की मई माह में राज्य, जिला, तालुका तथा ग्राम स्वागत कार्यक्रमों में तंत्रसंचालकों को प्राप्त कुल 6421 शिकायतों में से 5587 का शीघ्र व उचित निवारण भी दिया गया है। इस राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के.कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।